



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 66] नई दिल्ली, रविवार, फरवरी 28, 1982/फाल्गुन 9, 1903
No. 66] NEW DELHI, SUNDAY, FEBRUARY 28, 1982/PHALGUNA 9, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

[सं० 23/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क]

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 1982

सां० कां० निं० 82(अ) :—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का 16) की धारा 49 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची में वर्णित सभी माल को पूर्वोक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन उम पर उद्ग्रहणीय समस्त विशेष उत्पाद-शुल्क से, 28 फरवरी, 1982 को प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए छूट देती है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

(No. 23/82-CENTRAL EXCISES)

New Delhi, the 28th February, 1982

G.S.R. 82(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (4) of section 49 of the Finance Act, 1981 (16 of

1981), the Central Government hereby exempts all the goods mentioned in the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the special duty of excise leviable thereon under sub-section (1) of the said section for the period commencing on the 28th day of February, 1982, and ending on the 31st day of March, 1982.

(सं० 24/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)

सां० कां० निं० 83(अ) :—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1982 के खंड 50 के उपखंड (4), जो खंड अंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 6, 7, 8, 9, 11क (1), 11ख, 13, 23(1), 38 और 68 के अन्तर्गत आने वाले माल को, उक्त खंड के उपखंड (1) के अधीन उम पर उद्ग्रहणीय समस्त विशेष उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

(No. 24/82-CENTRAL EXCISES)

G.S.R. 83(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-clause (4) of clause 50 of the Finance Bill, 1982, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby exempts all the good

GSR 86(E).—In exercise of the powers conferred by rule 191B of the Central Excise Rules, 1944, read with clause 50 of the Finance Bill, 1982, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby directs that where any goods are liable to special duty of excise under the aforesaid clause and where the Central Government has by a notification issued under the said rule 191B, permitted the manufacture of specified articles in bond from such goods, manufacture of such articles, in bond, from such goods shall also be permissible for the purpose of the aforesaid clause subject to the same conditions as govern such manufacture under the said rule 191B.

(सं० 28/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)

सांख्यिकी 87(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1981 (1981 का 16) की धारा 49 की उपधारा (4) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विधिविहित करती है, अर्थात् :—

1. 116/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 12 मई, 1981
2. 117/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 12 मई, 1981
3. 118/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 12 मई, 1981
4. 119/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 12 मई, 1981

(No. 28/82-CENTRAL EXCISES)

G.S.R. 87 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (4) of section 49 of the Finance Act, 1981 (16 of 1981), the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), namely:—

1. 116/81-Central Excises, dated the 12th May, 1981.
2. 117/81-Central Excises, dated the 12th May, 1981.
3. 118/81-Central Excises, dated the 12th May, 1981.
4. 119/81-Central Excises, dated the 12th May, 1981.

(सं० 29/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)

सांख्यिकी 88(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त विधेयक, 1982 के खंड 50 के उपखंड (4), जो खंड अंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई प्रोपणा के आधार पर विधि का बल रखता है, के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए—

(1) कार्बन कज्जल के विनिर्माण में औद्योगिक फीड स्टॉक के रूप में प्रयोग के लिए आणविक सी०बी०एफ० (फीनॉल निष्कर्ष) '500' और '1300' को, चाहे वह केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 9 या मद सं० 10 या मद सं० 11 के अधीन आता है; और

(2) कार्बन कज्जल के विनिर्माण में कार्बन कज्जल फीड स्टॉक सं० 72 और बर्फीली कार्बन कज्जल फीड स्टॉक एम एल को, चाहे वह केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 9 या मद सं० 10 के अधीन आता है;

उक्त वित्त विधेयक के खंड 50 के उपखंड (1) के अधीन उस पर उद्घृष्ट शक्तीय समस्त विशेष उत्पाद-शुल्क से छूट देनी है।

जिवेन्द्र बत्रा, अवर सचिव

(No. 29/82-CENTRAL EXCISES)

G.S.R. 88 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-rule(1) of rule 8 of the Central Excises, 1944, read with sub-clause (4) of clause 50 of the Finance Bill, 1982, which clause has by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes, Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, the Central Government hereby exempts :

- (i) C.B.F. (Phenol Extract) '500' and '1300', whether it falls under Item No. 9 or item No. 10 or Item No. 11A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944(1 of 1944), intended for use as industrial feed stock in the manufacture of carbon black; and

(ii) Carbon Black Feed Stock No. 72 and Burmah-Shell Cabon Black Feed Stock SL, whether it falls under Item No. 9 or Item No. 10 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), intended for use as industrial feed stock in the manufacture of carbon black,

from the whole of the special duty of excise leviable thereon under sub-clause(1) of clause 50 of the said Finance Bill.

I.K. BATRA, Under Secy.

(सं० 30/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)

सांख्यिकी 89(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 1ख के अंतर्गत आने वाले और इससे उपावद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट वर्णन के योग्य और परिशुद्ध खाद्यों को उन पर उद्घृष्ट शक्तीय, उक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देनी है जो मुख्य के 10 प्रतिशत से अधिक है।

घनसूची

1. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए, फल उत्पाद आदेश, 1955 की द्वितीय अनुसूची की भाग 5 के अधीन विनिर्दिष्ट आलुबुन्द या टिड्डा-बुन्द फल (इस फल से मिले)।
2. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए फल, उत्पाद आदेश, 1955 की द्वितीय अनुसूची के भाग 5 के अधीन विनिर्दिष्ट आलुबुन्द या टिड्डा-बुन्द संशुद्ध।
3. मैस, कैच-अप और बेरे ही।
4. जैम, पत्र, जैली, मार्मेलैड, फल-पूरी और फल-पिस्टी, जो पकाई गई निमित्त हैं, चाहे उसमें मिलाई गई केली, टमाटर-पूरी और टमाटर-पिस्टी हो या न हो।
5. फल सिरप, कृण, रसधान, कार्टिगले, फल-रस, ग्राम मकरन्द, फल-रस सान्द्र, फल-गुदा, मान्द्र सज्जी-रस, अदरक काकटेन, गदरक बिथर, अदरक मुरा, कृत्रिम सिरप और मर्बल, तथा ग्लोस के लिए संवार पत्र (इसमें कालिब जल नहीं है)।
6. निरौलीकृत मसूर, निरौलीकृत मसूरियां।

श्री० सखी कुमारन, अवर सचिव

(No. 30/82-CENTRAL EXCISES)

G.S.R. 89 (E) :—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts prepared or preserved foods of the description specified in the Schedule annexed hereto, and falling under Item No. 1B of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of ten per cent. ad valorem.

THE SCHEDULE

- (1) Bottled or canned fruits (other than nuts), specified under Part V of the Second Schedule to the Fruit products Order, 1955, issued by the Central Government under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).
- (2) Bottled or canned vegetables specified under Part V of the Second Schedule to the Fruit Products Order, 1955, issued by the Central Government under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955).
- (3) Sauces Ketchup and the like.

- (4) Jams, fruit jellies, marmalades, fruit puree and fruit pastes, being cooked preparations, whether or not containing added sugar, tomato puree and tomato paste.
- (5) Fruit syrups, crushes, squashes, cordials, fruit juice, mango nectar, fruit juice concentrate, fruit pulp concentrate, vegetable juice, ginger cocktail, ginger beer, ginger ale, synthetic syrups and sharbats and ready-to-serve beverages (but excluding aerated waters).
- (6) Dehydrated peas, dehydrated vegetables.

V. LAKSHMI KUMARAN, Under Secy.

(सं० 31/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)

सं० का० नि० 90(ख).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 1 घ के अंतर्गत आने वाले वाणिज्य जल की, जिसकी निकासी किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से किसी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल की या उसके पश्चात् घरेलू उपभोग के लिए की जाती है,—

(क) साढ़े सात लाख रुपये से अधिक के कुल मूल्य तक वाणिज्य जल की प्रथम निकासी की दशा में, उस पर उद्ग्रहणीय मभस्त उत्पाद-शुल्क में; और

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट मूल्य की उक्त प्रथम निकासी की टीका अगली निकासी की दशा में (जो साढ़े सात लाख रुपये से अधिक के कुल मूल्य के वाणिज्य जल की निकासी है) [केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन जारी की गई और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना के साथ पठित] उक्त मद के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उल्लेखित उत्पाद-शुल्क से जितना ऐसे शुल्क के पचहत्तर प्रतिशत में अधिक है,

छूट देती है

परन्तु एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने से वाणिज्य जल की निकासी का कुल मूल्य—

- (i) इस पैरा के खंड (क) के अनुसार शुल्क की मूल्य दर पर, या
- (ii) इस पैरा के खंड (ख) के अनुसार शुल्क की घटी दर पर, दोनों ही दशाओं में किसी वित्तीय वर्ष में साढ़े सात लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।

2. इस अधिसूचना की कोई बात ऐसे विनिर्माता को लागू नहीं होगी,—

- (i) यदि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से घरेलू उपभोग के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद-शुल्क माल की निकासी का कुल मूल्य बीस लाख रुपये से अधिक हो गया हो;
- (ii) यदि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से घरेलू उपभोग के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त माल की निकासी का कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपये से अधिक हो गया हो।

3. जहां किसी वाणिज्य जल का विषय ऐसे व्यापार चिह्न के अधीन जो व्यापार और पथ वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 (1958 का 43) के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं, अथवा किसी ब्रांड नाम के अधीन किया जाता है और ऐसे वाणिज्य जल का विनिर्माण एक से अधिक कारखानों में, जहाँ वे एक या अधिक विनिर्माताओं के हों, एक ही व्यापार चिह्न या ब्रांड नाम से किया जाता है, वहाँ इस अधिसूचना की कोई बात लागू नहीं होगी यदि सभी ऐसे कारखानों में एक ही व्यापार चिह्न या ब्रांड नाम वाले सभी ऐसे वाणिज्य जल की एक साथ निकासी का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान पन्द्रह लाख रुपये से अधिक हो गया हो।

4. जहाँ किसी विनिर्माता ने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उक्त वाणिज्य जल की निकासी नहीं की है या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1 अगस्त को या उसके पश्चात् प्रथम बार वाणिज्य जल की निकासी की है, वहाँ इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट ऐसे विनिर्माता को लागू होगी,—

(क) यदि वह सहायक उत्पाद-शुल्क कलक्टर के पास हम आशय की घोषणा फाइल कर देता है,—

(i) कि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से घरेलू उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद-शुल्क माल की निकासी का कुल मूल्य बीस लाख रुपये से अधिक होने की संभावना नहीं है; और

(ii) कि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से घरेलू उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान वाणिज्य जल की निकासी का कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपये से अधिक होने की संभावना नहीं है; और

(ख) (i) यदि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से घरेलू उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद-शुल्क माल की निकासी का कुल मूल्य बीस लाख रुपये से अधिक नहीं है; और

(ii) यदि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से घरेलू उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान वाणिज्य जल की निकासी का कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपये से अधिक नहीं है।

5. इस अधिसूचना की कोई बात लागू नहीं होगी,—

(i) यदि एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने से घरेलू उपभोग के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद-शुल्क माल की निकासी का कुल मूल्य बीस लाख रुपये से अधिक हो गया हो;

(ii) यदि एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने से घरेलू उपभोग के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान वाणिज्य जल की निकासी का कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपये से अधिक हो गया हो।

6. जहाँ वाणिज्य जल की निकासी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में किसी कारखाने से नहीं की गई है या उसकी निकासी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1 अगस्त को या उसके पश्चात् प्रथम बार की गई है, वहाँ इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट छूट लागू नहीं होगी,—

(i) यदि एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से ऐसे कारखाने से घरेलू उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद-शुल्क माल की निकासी का कुल मूल्य बीस लाख रुपये से अधिक हो जाता है,

(ii) यदि एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से ऐसे कारखाने से घरेलू उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान वाणिज्य जल की निकासी का कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपये से अधिक हो जाता है।

स्पष्टीकरण 1—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए “मूल्य” शब्द से वह मूल्य अभिप्रेत है जिसका अवधारण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4 के उपवर्तों के अनुसार किया जाता है।

स्पष्टीकरण 2—इस अधिसूचना के अधीन निकासी के कुल मूल्य की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, उक्त माल की निकासी जिसका केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन जारी की गई और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना द्वारा

उस पर उद्बोध्यमान समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त है, जिससे कि नतीजा ली जायेगी, किन्तु कोई ऐसी निकामी जिसकी बाबत भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 80/80-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 19 जून, 1980 के अधीन छूट प्राप्त कर ली गई है, जिससे कि ली जायेगी।

आर० के० चक्रवर्ती, उप सचिव

(No. 31/82-CENTRAL EXCISES)

C.S.R. 90(E) :—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts aerated waters, falling under Item No. 1D of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and cleared for home consumption on or after the 1st day of April in any financial year, by or on behalf of a manufacturer, from one or more factories,

- (a) in the case of first clearances of aerated waters upto an aggregate value not exceeding rupees seven and a half lakhs, from the whole of the duty of excise leviable thereon; and
- (b) in the case of the clearances (being clearances of aerated waters of an aggregate value not exceeding rupees seven and a half lakhs) immediately following the said first clearances of the value specified in clause (a), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Item [read with any other notification issued under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in force for the time being] as is in excess of seventy five per cent. of such duty;

Provided that the aggregate value of clearances of aerated waters from any factory by or on behalf of one or more manufacturers, —

- (i) at nil rate of duty in terms of clause (a) of this paragraph, or
- (ii) at reduced rate of duty in terms of clause (b) of this paragraph,

shall not, in either case, exceed rupees seven and a half lakhs in any financial year.

2. Nothing contained in this notification shall apply to a manufacturer, —

- (i) if the aggregate value of clearances of all excisable goods by him or on his behalf for home consumption, from one or more factories, during the preceding financial year, had exceeded rupees twenty lakhs;
- (ii) if the aggregate value of clearances of aerated waters by him or on his behalf for home consumption, from one or more factories, during the preceding financial year, had exceeded rupees fifteen lakhs.

3. Where any aerated waters are sold under a trade mark, registered under the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 (43 of 1958) or not, or under a brand name, and such aerated waters are manufactured with the same trade mark or brand name in more than one factory, whether belonging to one or more manufacturers, nothing contained in this notification shall apply if the aggregate value of clearances of all such aerated waters bearing the same trade mark or brand name from all such factories taken together and exceeded rupees fifteen lakhs during the preceding financial year.

4. Where a manufacturer has not cleared any aerated waters in the preceding financial year, or has cleared any aerated waters

or the first time on or after the 1st day of August in the preceding financial year, the exemption contained in this notification shall be applicable to such manufacturer, —

- (a) if he files a declaration with the Assistant Collector of Central Excise, —
 - (i) that the aggregate value of clearances of all excisable goods by him or on his behalf for home consumption, from one or more factories, during the financial year is not likely to exceed rupees twenty lakhs, and
 - (ii) that the aggregate value of clearances of aerated waters by him or on his behalf for home consumption, from one or more factories, during the financial year is not likely to exceed rupees fifteen lakhs; and
- (b) (i) if the aggregate value of clearances of all excisable goods by him or on his behalf for home consumption, from one or more factories, during the financial year does not exceed rupees twenty lakhs, and
- (ii) if the aggregate value of clearances of aerated waters by him or on his behalf for home consumption, from one or more factories, during the financial year does not exceed rupees fifteen lakhs.

5. Nothing contained in this notification shall apply, —

- (i) if the aggregate value of clearances of all excisable goods from any factory by or on behalf of one or more manufacturers for home consumption, during the preceding financial year, had exceeded rupees twenty lakhs,
- (ii) if the aggregate value of clearances of aerated waters from any factory by or on behalf of one or more manufacturers for home consumption, during the preceding financial year, had exceeded rupees fifteen lakhs.

6. Where any aerated waters have not been cleared from any factory in the preceding financial year, or have been cleared for the first time on or after the 1st day of August in the preceding financial year, the exemption contained in this notification shall not be applicable, —

- (i) if the aggregate value of clearances of all excisable goods from such factory by or on behalf of one or more manufacturers for home consumption, during the financial year, exceeds rupees twenty lakhs,
- (ii) if the aggregate value of clearances of aerated waters from such factory by or on behalf of one or more manufacturers for home consumption, during the financial year, exceeds rupees fifteen lakhs.

Explanation I.—For the purposes of this notification the expression “value” means the value as determined in accordance with the provisions of section 4 of Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

Explanation II.—For the purposes of computing the aggregate value of clearances under this notification the clearances of aerated waters, which are exempted from whole of the duty of excise leviable thereon by any other notification issued under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and for the time being in force shall not be taken into account, but the clearances, if any, in respect of which exemption has been availed of under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 80/80-Central Excises, dated the 19th June, 1980 shall be taken into account.

R. K. CHAKRABARTI, Dept. Secy.

(सं० 32/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)

सां०कां०निं० 91(घ)—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 53) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 32/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979 को अधिकांश करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 4 की उप मद II(3)(ii) के अन्तर्गत आने वाली बीड़ियों को, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उन पर उद्घाटनीय उत्तरे उत्पादन-शुल्क से छूट देती है जो 3.60 रु० प्रति हजार से अधिक है।

परन्तु यदि ऐसे अधिकारी के जो सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर की पंक्ति से नीचे का न हों, समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि ऐसी बीड़ियों का विनिर्माण ऐसी बीड़ियों से किया गया है जिन पर उत्पाद-शुल्क की समुचित मात्रा पहले ही संवत् कर दी गई है तो ऐसी बीड़ियों को उन पर उत्पाद-शुल्क से छूट दी जाएगी जो उस उत्पाद-शुल्क के समान हों जो उन बीड़ियों पर पहले ही संवत् किया गया है जिससे ऐसी बीड़ियों का विनिर्माण किया गया है।

परन्तु यह और कि इस प्रकार उद्घाटनीय शुल्क की रकम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1), और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उद्घाटनीय शुल्क के बीच क्रमशः 75 : 25 के अनुपात में प्रभाजन की जाएगी।

(NO. 32/82-CENTRAL EXCISES)

G.S.R. 91(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 32/79-Central Excises, dated the 1st March, 1979, the Central Government hereby exempts biris, falling under sub-item II(3)(ii) of Item No. 4 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon both under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), as is in excess of Rs. 3.60 per one thousand :

Provided that if it is proved to the satisfaction of an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise that such biris have been manufactured from biris on which the appropriate amount of duty of excise has already been paid, such biris shall be exempt from so much of the duty of excise as is equivalent to the duty of excise already paid on biris from which such biris have been manufactured :

Provided further that the amount of duty so levied shall be apportioned in the ratio of 75 : 25 between the duty leviable under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), respectively.

(सं० 33/82-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

सां०कां०निं० 92(घ)—केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम,

1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 83/80-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 19 जून, 1980 को अधिकांश करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 4 की उपमद II(3)(ii) के अन्तर्गत आने वाली 'बीड़ियों' को एक या अधिक कारखाने से किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से अथवा उपयोग के लिए ऐसी बीड़ियों की प्रथम निकासी की बाधन बीम लाख से अधिक परिमाण तक, जिनकी निकासी किसी विनिर्माण वर्ष में 1 अप्रैल को या उसके पश्चात् की जाती है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उन पर उद्घाटनीय मन्त्र उत्पाद-शुल्क से इस शर्त के अधीन रहते हुए छूट देती है कि ऐसी बीड़ियों का विनिर्माण किसी ऐसे निर्माता द्वारा किया जाता है जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसी बीड़ियों का विक्रय किसी ब्रांड नाम के अधीन नहीं किया जाता है।

व्याख्या—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "ब्रांड नाम" से अभिप्रेत है कोई ब्रांड नाम, चार्टर, रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, अर्थात् ऐसा नाम या चिह्न, जैसे प्रतीक चिह्न, मोनोग्राम, निशान, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या कोई लेख, जो उन बीड़ियों के तथा किसी व्यक्ति के बीच, जो उस व्यक्ति की पहचान को उपदर्शित करके या उपदर्शित किए बिना, ऐसे नाम या चिह्न का प्रयोग करता है, अर्थात् के अन्तर्गत में कोई सम्बन्ध उपदर्शित करने के लिए या इस लिए कि ऐसा सम्बन्ध उपदर्शित हो, उन बीड़ियों के संबंध में प्रयोग में लाया जाता है।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1982 को प्रवृत्त होगी।

(NO. 33/82-CENTRAL EXCISES)

G.S.R. 92 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 83/80—Central Excises, dated the 19th June, 1980, the Central Government hereby exempts, biris, falling under sub-item II(3)(ii) of Item No. 4 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), in respect of the first clearances of such biris for home consumption by or on behalf of a manufacturer from one or more factories upto a quantity not exceeding 20 lakhs, cleared on or after the 1st day of April in any financial year, from the whole of the duty of excise leviable thereon, both under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), subject to the condition that such biris are manufactured by a manufacturer by whom or on whose behalf no biris are sold under a brand name.

Explanation.—For the purposes of this notification, "brand name" shall mean a brand name, whether registered or not—that is to say, a name or a mark, such as a symbol, monogram, label, signature or invented word or writing which is used in relation to such biris for the purpose of indicating, or so as to indicate a connection in the course of trade between the biris and some person using such name or mark with or without any indication of the identity of that person.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1982.

(सं 34/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)

सां कां नि० 93(प्र).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 174 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 77/80 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 19 जून, 1980 का अधिनियम करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 4 की उपमद 17(3)(ii) के अन्तर्गत आने वाली बीड़ियों को उक्त नियमों के नियम 174 के प्रवर्तन से तब तक छूट देती है जब तक ऐसी बीड़ियों की भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 33/82 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982 के अधीन, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट प्राप्त रहती है और किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों के अर्जों उपभोग के लिए ऐसी बीड़ियों की निकासी किसी विनियम वर्ग में 16 लाख से अधिक नहीं होती।

2 यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1982 को प्रवृत्त होगी।

(NO.34/82-CENTRAL EXCISES)

G.S.R. 93 (E).—In exercise of the powers conferred by rule 174A of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 77/80—Central Excises, dated the 19th June, 1980, the Central Government, being satisfied that it is necessary and expedient in the public interest so to do, hereby exempts from the operation of rule 174 of the said rules biris, falling under sub-item II(3) (ii) of Item No. 4 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) so long as such biris remain exempt from the whole of the duty of excise leviable thereon under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 33/82—Central Excises, dated the 28th February, 1982 and the clearances of such biris for home consumption by or on behalf of a manufacturer from one or more factories do not exceed 16 lakhs in a financial year.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1982.

(सं 35/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)

सां कां नि० 94(प्र).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 7 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसरण में, यह विहित करती है कि "धूप पित्तु" का अवधारण तत्समय यथाप्रवृत्त भारतीय मानक संस्थान के विनिर्देश भा० मा० : 1448 (पी: 31)-1968 में उपदर्शित गति से रूप बिन्दु लैम्प के नाम से ज्ञात उपकरण द्वारा किया जाएगा।

(NO. 35/82-CENTRAL EXCISES)

G.S.R. 94 (E).—In pursuance of Explanation II to Item No. 7 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby prescribes that "Smoke point" shall be determined in the apparatus known as the Smoke Point Lamp in the manner indicated in the Indian Standards Institution specification IS:1448(P:31)—1968 as in force for the time being.

(सं 36/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)

सां कां नि० 95(प्र).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद

सं० 7 के स्पष्टीकरण 3 के अनुसरण में, यह विहित करती है कि "अंतिम वजनोक्त" का अवधारण तत्समय यथाप्रवृत्त भारतीय मानक संस्था के विनिर्देश भा० मा० : 1448 (पी: 18)-1967 में उपदर्शित गति से किया जाएगा।

(NO. 36/82-CENTRAL EXCISES)

G.S.R. 95(E).—In pursuance of Explanation III to Item No. 7 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby prescribes that "Final boiling point" shall be determined in the manner indicated in the Indian Standards Institution specification IS:1448(P:18)—1967 as in force for the time being.

(सं 37/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)

सां कां नि० 96(प्र).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 8 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसरण में, यह विहित करती है कि "कार्बन अवशेष" का अवधारण तत्समय यथाप्रवृत्त भारतीय मानक संस्था के विनिर्देश भा० मा० : 1448 (पी: 8)-1967 में उपदर्शित गति से रेम्सबोम कार्बन अवशेष उपकरण के नाम से ज्ञात उपकरण द्वारा किया जाएगा।

(NO. 37/82-CENTRAL EXCISES)

G.S.R. 96(E).—In pursuance of Explanation II to Item No. 8 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby prescribes that "Carbon residue" shall be determined in the apparatus known as Ramsbottom Carbon Residue Apparatus in the manner indicated in the Indian Standards Institution specification IS: 1448(P:8)—1967 as in force for the time being.

(सं 38/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)

सां कां नि० 97(प्र).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 231/79 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 अगस्त, 1979 की अधिकांश करने हुए, नोबे की मारणों के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) का पहला अनुसूची की मद सं० जो उक्त मारणों के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद-शुल्क माल को, उस पर उद्ग्रहणीय उक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जिनका उक्त मारणों के स्तम्भ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर उद्ग्रहणीय शुल्क में अधिक है।

मारणी

क्र०सं०	मद सं०	वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	8	परिष्कृत डीजल तेल- पम्पड डियरी सेटीग्रेड थर्मामीटर (क) उच्च गति पर तीन सौ चौसीम स्क्व डीजल तेल के चार पैसे प्रति किलो नाम से ज्ञात लीटर। प्रकार का।	

- (ख) अन्य। पन्द्रह डिग्री सेंटीग्रेड थर्मामीटर पर चार सौ पचास रुपये प्रति किलो मीटर।
2. 11(2) पेट्रोलियम कोक, जिस्ता मूल्य का बीस प्रतिशत।
गिन पेट्रोलियम कोक से भिन्न।
3. 11क(2) कच्चे पेट्रोलियम या मूल्य का बीस प्रतिशत।
ग्रेन के परिष्करण से प्राप्त पेट्रोलियम गैस और गैसीय हाइड्रोकार्बन

परन्तु उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 8 के अन्तर्गत आने वाले ट्रांसफार्मर तेल के संबंध में इस अधिसूचना में अल्ट्राव्हाइट फ्लूट केवल ऐसे ट्रांसफार्मर तेल को लागू होगी जिसका ऐसे ट्रांसफार्मर तेल केम स्टॉक या ट्रांसफार्मर तेल फीड स्टॉक से विनिर्माण किया जाता है जिसपर, यथास्थिति, सम्बन्धित उत्पाद-शुल्क या सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उद्घाटनीय अतिरिक्त शुल्क पहले ही संदत्त कर दिया गया है।

(NO. 38/82 CENTRAL EXCISES)

G.S.R. 97(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.251/79—Central Excises, dated the 17th August, 1979, the Central Government hereby exempts excisable goods of the description specified in column (3) of the Table below and falling under the Item Nos. of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), specified in the corresponding entries in column (2) of the said Table, from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty leviable at the rates specified in the corresponding entries in column(4) of the said Table.

THE TABLE

S. No.	Item No.	Description	Rate of duty
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	8	Refined Diesel Oil—	
	(a)	of the type known as High Speed Diesel Oil.	Three hundred and thirty-four rupees and four paise per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer.
	(b)	Others.	Four hundred and fifty rupees per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer.
2.	11(2)	Petroleum coke, other than calcined petroleum cake.	Twenty per cent ad valorem.
3.	11AA(2)	Petroleum gases and gaseous hydrocarbons derived from refining of crude petroleum or shale.	Twenty per cent ad valorem

Provided that in relation to transformer oil, falling under Item No. 8 of the said First Schedule, the exemption contained in this notification shall apply to only such transformer oil which is manufactured from transformer oil base stock or transformer oil feed stock on which the appropriate duty of excise, or the additional duty leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, has already been paid.

(सं० 39/82 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)

सां० का० नि० 98(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रस्तुत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मन्त्रालय (राजस्व और बोमा विभाग) की अधिसूचना सं० 123/63- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 जुलाई, 1963 की अधिकांश करने हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 8 के अन्तर्गत आने वाले ब्राउनाईड विनायक तेल को यदि उक्त मांम का प्रयोग करने के लिए विनायक के कम में किसी परिष्कृत की संतार प्रयोग किया जाता है, तो उस पर उद्घाटनीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

(NO. 39/82-CENTRAL EXCISES)

G.S.R. 98(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 123/63-Central Excises, dated the 27th July, 1963, the Central Government hereby exempts bauxite solvent oil, falling under Item No. 8 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), if used within a refinery as solvent for purifying waxes, from the whole of the duty of excise leviable thereon.

(सं० 40/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)

सां० का० नि० 99(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 8 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसरण में यह विहित करती है कि “रंग तुलना परीक्षण” निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात्—

- (i) पहले भामुत जल में पोटैशियम आयोडाइड (वैश्लेषिक अभिकर्मक क्वालिटी) के प्रबलता घोल के आधार पर पाल प्रविष्टात आर तैयार करें।
- (ii) उसमें, यथातथ 0.04 सामान्य आयोडीन घोल तैयार करने के लिए अपेक्षित मात्रा में आयोडीन (वैश्लेषिक अभिकर्मक क्वालिटी) मिलाएँ।
- (iii) उसके पश्चात्, परीक्षण के अधीन खनिज तेल के रंग की इस प्रकार तैयार किए गए आयोडीन घोल से तुलना करें।

(NO. 40/82-CENTRAL EXCISES)

G.S.R. 99(E).—In pursuance of Explanation II to Item No. 8 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby prescribes that “colour comparison test”, shall be done in the following manner, namely :—

- (i) First prepare a five per cent. weight by volume solution of Potassium Iodide (analytical reagent quality) in distilled water.
- (ii) To this, add Iodine (analytical reagent quality) in requisite amount to prepare an exactly 0.04 normal Iodine solution.
- (iii) Thereafter, compare the colour of the mineral oil under test with the Iodine solution so prepared.

सं० 41/82—केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क

(1) (2)

(3)

सा०का०वि० 100(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवक्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इससे उत्पाद-शुल्क सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के, यथास्थिति, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) या (राजस्व और शीमा विभाग), या राजस्व और बैंकिंग विभाग की प्रत्येक अधिसूचनाएं उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से, यथास्थिति, संशोधित या और संशोधित की जाएंगी।

सारणी

क्र० सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	187/61—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 23 दिसम्बर, 1961	उक्त अधिसूचना में "चार रुपए छत्तीस पैसे" शब्दों के स्थान पर "चार रुपए चालीस पैसे" शब्द रखे जाएंगे;
2.	168/62—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 सितम्बर, 1962	उक्त अधिसूचना में, "11क" अंक और अक्षर के स्थान पर "11कक" अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
3.	194/62—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 नवम्बर, 1962	उक्त अधिसूचना में, "तीन रुपए पैतलीस पैसे" शब्दों के स्थान पर "एक-सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे;
4.	4/64—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जनवरी, 1964	उक्त अधिसूचना में, "चार-सौ बहत्तर रुपए पचास पैसे" शब्दों के स्थान पर "पाँच सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे;
5.	276/67—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 21 दिसम्बर, 1967	उक्त अधिसूचना में,— (i) "6 से 11क" अंक, शब्द और अक्षर के स्थान पर "6 से 11कक" अंक, शब्द और अक्षर रखे जाएंगे। (ii) परस्तुक में, "स्फुरांक फार्मिमीटर थर्मामीटर के 76 डिग्री से नीचे" शब्दों और अंकों के स्थान पर "स्फुरांक सेंटीग्रेड थर्मामीटर के 25 डिग्री से नीचे" शब्द और अंक रखे जाएंगे;
6.	44/71—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 7 अप्रैल, 1971	उक्त अधिसूचना में,— (i) "मद सं० 8 के अन्तर्गत आने वाले" शब्दों और अंक के स्थान पर "मद सं० 11क के अन्तर्गत आने वाले" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे; (ii) "सेंटीग्रेड थर्मामीटर के 15 डिग्री पर प्रति किलोलीटर अधिकतम रूप से चौबीस पैसे" शब्दों के स्थान पर "प्रति मीटरी टन एक सौ दस रुपए" शब्द रखे जाएंगे; (iii) शर्त (i) के स्थान पर, निम्न-लिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :— "(1) खनिज तेल

(क) का स्फुरांक 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड पर या उससे ऊपर है;

(ख) का धूम बिन्दु 15 मिली-मीटर से अधिक नहीं है;

(ग) में कार्बन अवशिष्ट भार में 0.25 प्रतिशत से कम है;

(घ) में 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेडबुड I स्थानतावापी के अनुसार 50 सेकेण्ड या उससे अधिक की स्थानता है;

(ङ) का मामूली रूप में उपयोग वाह्य ईंधन, के रूप में या अश्वबल हजिनों के लिए ईंधन के रूप में या प्रदीपक के रूप में नहीं किया जाता है"।

7. 9/74—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 26 जनवरी, 1974
उक्त अधिसूचना में,—
(क) खण्ड (i) में, "12.60" अंकों के स्थान पर "100.00" अंक रखे जाएंगे;

(ख) खण्ड (ik) में, "12.00" अंकों के स्थान पर "100.00" अंक रखे जाएंगे;

(ग) खण्ड (ii) में, "5 प्रतिशत मूलानुसार" अंक और शब्दों के स्थान पर "मूल्य का 10 प्रतिशत" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

8. 21/74—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च 1974
उक्त अधिसूचना में, "2017.63" अंकों के स्थान पर "2025.00" अंक रखे जाएंगे।

9. 138/74—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 14 सितम्बर, 1974
उक्त अधिसूचना में,—
(i) "सत्तासी रुपए बासठ पैसे" शब्दों के स्थान पर "एक-सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे;
(ii) शर्त (क) के स्थान पर निम्न-लिखित शर्त रखी जाएगी, अर्थात् :—
"(1) खनिज तेल—

(क) का स्फुरांक 93.3 डिग्री सेंटीग्रेड पर या उससे ऊपर है;

(ख) का धूम बिन्दु 10 मिली मीटर से कम है;

(ग) में कार्बन अवशिष्ट भार में 0.25 प्रतिशत से कम है;

(घ) में 37.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेडबुड I स्थानतावापी के अनुसार 40 सेकेण्ड या उससे अधिक की स्थानता है;

(1)	(2)	(3)
		(इ) का मामूली रूप में उपयोग बाह्य ईंधन के रूप में या अन्त-वहन ईंधनों के लिए ईंधन के रूप में या प्रदीपन के रूप में नहीं किया जाता है।"
10. 60/76- केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 मार्च, 1976	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में,—	(i) क्रम सं० 1 के सामने, स्तम्भ (3) में "निम्न गंधक ईंधन तेल से भिन्न" शब्दों का लोप किया जाएगा;
		(ii) क्रम सं० 2 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा
		(iii) क्रम सं० 3 के सामने, स्तम्भ (2) में प्रविष्टि के स्थान पर "11क (2)" प्रविष्टि रखी जाएगी।
11. 72/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 अप्रैल, 1977	उक्त अधिसूचना में, "चार रुपए छत्तीस पैसे" शब्दों के स्थान पर "चार रुपए पचासीस पैसे" शब्द रखे जाएंगे।	
12. 345/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 दिसम्बर, 1977	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में,—	(i) क्रम सं० 1 और 2 के सामने, स्तम्भ (2) में कि प्रविष्टि के स्थान पर "11क" प्रविष्टि रखी जाएगी।
		(ii) क्रम सं० 4 के सामने—
		(क) स्तम्भ 2 में की प्रविष्टि के स्थान पर "खनिज कोल्जा तेल" प्रविष्टि रखी जाएगी।
		(iii) क्रम सं० 5 के सामने—
		(क) स्तम्भ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर "11क" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
		(ख) स्तम्भ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:— "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 11क की उपमद (4) के अंतर्गत आने वाली सभी उत्पाद, जो खनिज कोल्जा तेल से भिन्न हैं।

(1)	(2)	(3)
13. 352/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 दिसम्बर, 1977	उक्त अधिसूचना में, "मद सं० 6 से 11क" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर "मद सं० 6 से 11कक" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।	
14. 45/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979	उक्त अधिसूचना में— (i) खण्ड (क) में, "नौ रुपए पैसालीम पैसे" शब्दों के स्थान पर "एक-सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे ; और (ii) खण्ड (ख) में, "नौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक-सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे।	
15. 219/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 जून, 1979	उक्त अधिसूचना में, "अस्सी रुपए पन्द्रह पैसे" शब्द के स्थान पर "एक-सौ बस रुपए" शब्द रखे जाएंगे।	
16. 231/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जुलाई, 1979	उक्त अधिसूचना में, "मद सं० 11घ" शब्द, अंक और अक्षर के स्थान पर मद सं० 11(1)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।	
17. 250/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 अगस्त, 1979	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम सं० 3 के सामने स्तम्भ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर "11कक" प्रविष्टि रखी जाएगी।	

No. 41/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 100 (E)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that each of the notifications of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or (Department of Revenue and Insurance), or in the Department of Revenue and Banking, as the case may be, specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No.	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	187/61-Central Excises, dated the 23rd Dec., 1961.	In the said notification, for the words "four rupees and thirty-six paise", the words "four rupees and forty paise" shall be substituted;
2.	168/62-Central Excises, dated the 15th Sep., 1962.	In the said notification, for the figure and letter "IIA" the figure and letters "IIAA" shall be substituted;
3.	194/62-Central Excises, dated the 17th Nov., 1962.	In the said notification, for the words "nine rupees and forty-five paise", the words "one hundred rupees" shall be substituted;

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
4. 4/64-Central Excises, dated the 18th January, 1964.	In the said notification, for the words "four hundred and seventy-two rupees and fifty paise", the words "five hundred rupees" shall be substituted;		8. 21/74-Central Excises, dated the 1st March, 1974.	In the said notification, for the figures "2017.63", the figures "2025.00" shall be substituted.	
5. 276/67-Central Excises, dated the 21st Dec., 1967.	In the said notification,— (i) for the figures, word and letter "6 to 11A", the figures, word and letters "6 to 11AA" shall be substituted; (ii) in the proviso, for the words and figures "flashing point below 76 degree of Fahrenheit's thermometer", the words and figures "flash point below 25 degrees of Centigrade thermometer" shall be substituted;		9. 138/74-Central Excises, dated the 14th Sept. 1974.	In the said notification,— (i) for the words "eighty-seven rupees and sixty-two paise", the words "one hundred rupees" shall be substituted— (ii) for condition (a), the following condition shall be substituted, namely:— "(1) the mineral oil— (a) has its flash point at or above 93.3° Centigrade; (b) has its smoke point of less than 10 millimetres; (c) contains carbon residue less than 0.25% by weight; (d) has a viscosity of 40 seconds or more by Redwood I Viscometer at 37.8° Centigrade; (e) is not ordinarily used as external fuel, or as fuel for internal combustion engines, or as an illuminant".	
6. 44/71-Central Excises, dated the 7th April, 1971.	In the said notification,— (i) for the words and figure "falling under Item No. 8", the words, figure and letter "falling under Item No. 11A" shall be substituted; (ii) for the words "seventy-four rupees and twenty-four paise per kilolitre at fifteen degrees of Centigrade thermometer", the words "one hundred and ten rupees per metric tonne" shall be substituted; (iii) for condition(1), the following condition shall be substituted, namely:— "(1) the mineral oil— (a) has its flash point at or above 93.3° Centigrade; (b) has a smoke point of not more than 15 millimetres; (c) contains carbon residue less than 0.25% by weight; (d) has a viscosity of 50 seconds or more by Redwood I Viscometer at 37.8° Centigrade; (e) is not ordinarily used as an external fuel, or as fuel for internal combustion engines, or as an illuminant."		10. 60/76-Central Excises, dated the 16th March, 1976.	In the Table annexed to the said notification,— (i) against S. No. 1, in column (3), the words "other than Low Sulphur Fuel Oil" shall be emitted; (ii) S.No. 2 and the entries relating thereto shall be omitted; and (iii) against S. No. 3 in column 2, for the entry, the entry "11A(2)" shall be substituted.	
9/74-Central Excises, dated the 26th January, 1974.	In the said notification,— (a) in clause (i), for the figures "12.60", the figures "100.00" shall be substituted; (b) in clause (ia) for the figures "12.00", the figures "100.00" shall be substituted; (c) in clause (ii), for the figure and words "5 per cent ad valorem", the figure and words "10 per cent. ad valorem" shall be substituted.		11. 72/77-Central Excises, dated the 29th April, 1977.	In the said notification, for the words "four rupees and thirty-six paise", the words "four rupees and forty paise" shall be substituted.	
			12. 345/77-Central Excises, dated the 16th December, 1977.	In the Table annexed to the said notification:— (i) against S. Nos. 1 and 2, in column (2), for the entry, the entry "11A" shall be substituted; (ii) against S. No. 4— (a) in column (2), for the entry, the entry "11A" shall be substituted; (b) in column (3), for the entry, the entry "mineral colza oil" shall be substituted;	

(1)	(2)	(3)
		(iii) against S. No. 5—
		(a) in column (2), for the entry the entry "11A" shall be substituted;
		(b) in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely:— "All products falling under sub-item (4) of Item No. 11A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), other than mineral colza oil".
13. 352/77-Central Excises, dated the 16th December, 1977.	In the said notification, for the words, figures and letter "Item Nos. 6 to 11A", the words, figures and letters "Item Nos. 6 to 11AA" shall be substituted.	
14. 45/79-Central Excises, dated the 1st March 1979.	In the said notification:— (i) In clause (a), for the words "nine rupees and forty-five paise", the words "one hundred rupees" shall be substituted; and (ii) in clause (b), for the words "nine rupees", the words "one hundred rupees" shall be substituted.	
15. 219/79-Central Excises, dated the 30th June, 1979.	In the said notification, for the words "eighty rupees and fifteen paise", for the words "one hundred and ten rupees" shall be substituted.	
16. 231/77-Central Excises, dated the 18th July, 1979.	In the said notification, for the words, figure and letter "Item No. 11D", the words, figure and bracket "Item No. 11(1)" shall be substituted.	
17. 250/79-Central Excises, dated the 17th August, 1979.	In the Table annexed to the said notification, against S. No. 3, in column (2), for the entry, the entry "11A" shall be substituted.	

सं० 42/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 101(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के, यथास्थिति, राजस्व विभाग या राजस्व और बीमा विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाओं का विखण्डन करती है, —अर्थात:—

1. सं० 130/65-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 20 अगस्त, 1965।
2. सं० 145/66-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 26 फरवरी, 1966।
3. सं० 134/68-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 जून, 1968।
4. सं० 354/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 दिसम्बर, 1977।

जिनेन्द्र शर्मा, अधीक्षक सचिव

NO. 42/82—CENTRAL EXCISES

G. S. R. 101 (E)—In exercise of the powers conferred rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue or Department of Revenue and Insurance, as the case may be, namely:—

1. No. 130/65-Central Excises, dated the 20th August, 1965.
2. No. 145/66-Central Excises, dated the 26th February, 1966.
3. No. 134/68-Central Excises, dated the 29th June, 1968.
4. No. 354/77-Central Excises, dated the 16th December, 1977.

J. K. BATRA, Under Secy.

सं० 42/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 102 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 145 के अन्तर्गत आने वाले किसी प्रक्रिया में प्रयोग में लाए जाने वाले संश्लिष्ट कार्बनिक रंजक (जिसमें पिंगमट रंजक भी है) और संश्लिष्ट कार्बनिक व्युत्पाद को (जिसमें इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है) किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से घरेलू उपभोग के लिए एक लाख रु० से अधिक के कुल मूल्य तक उक्त माल की प्रथम निकासी की जावे, जिसकी निकासी किसी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल की या उसके पश्चात् की जाती है, उस पर उदग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है:

परन्तु एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने से इस अधिसूचना के अधीन शुल्क की शून्य दर पर उक्त माल की प्रथम निकासी का कुल मूल्य किसी वित्तीय वर्ष में एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगा।

2. इस अधिसूचना की कोई बात लागू नहीं होगी यदि, —

(i) किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से, या

(ii) एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने से,

घरेलू उपभोग के लिए उक्त माल की निकासी का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान एक लाख रुपए से अधिक हो गया था।

3. जहाँ किसी विनिर्माता ने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उक्त माल की निकासी नहीं की है या, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1 अगस्त को या उसके पश्चात् प्रथम बार उक्त माल की निकासी की है, वहाँ इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट ऐसे विनिर्माता को लागू होगी, —

(i) यदि वह सहायक उत्पाद-शुल्क कलक्टर के पास इस प्राणय की घोषणा फाइल कर देता है कि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से घरेलू उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त माल की निकासी का कुल मूल्य एक लाख रुपए से अधिक होने की संभावना नहीं है; और

(ii) यदि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से घरेलू उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त माल की निकासी का कुल मूल्य एक लाख रुपए से अधिक नहीं है।

4. जहाँ उक्त माल की निकासी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में किसी कारखाने से नहीं की गई है या उसकी निकासी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1 अगस्त को या उसके पश्चात् प्रथम बार की गई है, वहाँ इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट लागू नहीं होगी यदि एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या

उनकी ओर से ऐसे कारखानों में घरेलू उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त माल की निकासी का कुल मूल्य एक लाख रुपये से अधिक हो जाना है।

स्पष्टीकरण 1 :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, 'मूल्य' शब्द से वह मूल्य अभिप्रेत है जिसका अध्यादेश केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4 के उपबंधों के अनुसार किया जाता है।

स्पष्टीकरण 2 :—इस अधिसूचना के अधीन निकासी के कुल मूल्य की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, उक्त माल की निकासी जिसको केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन जारी की गई और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना द्वारा उस पर उद्घरण्य समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त है, हिमाख में नहीं ली जाएगी, किन्तु कोई ऐसी निकासी जिसकी बाबत भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 80/80-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 19 जून, 1980 के अधीन छूट प्राप्त कर ली गई है, हिमाख में ली जाएगी।

No. 43/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 102 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts synthetic organic dyestuffs (including pigment dyestuffs) and synthetic organic derivatives used in any dyeing process, falling under Item No. 14D of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), (hereinafter referred to as the said goods), in respect of the first clearances of the said goods for home consumption by or on behalf of a manufacturer from one or more factories upto an aggregate value not exceeding rupees one lakh, cleared on or after the 1st day of April in any financial year, from the whole of the duty of excise leviable thereon:

Provided that the aggregate value of the first clearances of the said goods from any factory by or on behalf of one or more manufacturers at nil rate of duty under this notification shall not exceed rupees one lakh in any financial year.

2. Nothing contained in this notification shall apply, if the aggregate value of clearances of the said goods for home consumption,—

- (i) by or on behalf of a manufacturer, from one or more factories, or
- (ii) from any factory, by or on behalf of one or more manufacturers,

had exceeded rupees one lakh during the preceding financial year.

3. Where a manufacturer has not cleared the said goods in the preceding financial year, or has cleared the said goods for the first time on or after the 1st day of August in the preceding financial year, the exemption contained in this notification shall be applicable to such manufacturer,—

- (i) if he files a declaration with the Assistant Collector of Central Excise that the aggregate value of clearances of the said goods by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during the financial year is not likely to exceed rupees one lakh, and
- (ii) if the aggregate value of clearances of the said goods by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during the financial year does not exceed rupees one lakh.

4. Where the said goods have not been cleared from any factory in the preceding financial year, or have been cleared for the first time on or after the 1st day of August in the preceding financial year, the exemption contained in this notification shall not be applicable if the aggregate value of clearances of the said goods from such factory by or on behalf of one or more manufacturers, for home consumption, during the financial year, exceeds rupees one lakh.

Explanation I—For the purposes of this notification the expression "value" means the value as determined in accordance with the provisions of section 4 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

Explanation II—For the purposes of computing the aggregate value of clearances under this notification the clearances of the said goods, which are exempted from whole of the duty of excise leviable thereon by any other notification issued under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and for the time being in force shall not be taken into account, but the clearances, if any, in respect of which exemption has been availed under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 80/80-Central Excises, dated the 17th June, 1980 shall be taken into account.

सं० 44/82 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सं० का० सं० 103 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 14 घ के अन्तर्गत आने वाले किसी प्रक्रिया में प्रयोग में लाए जाने वाले संश्लिष्ट कार्बनिक रंजक (जिसमें पियमेंट रंजक भी हैं) और संश्लिष्ट कार्बनिक उत्पाद की (जिसे हमें हमें पञ्चात् उक्त माल कहेंगे) किसी विनिर्माता द्वारा या उसके ओर से एक या अधिक कारखानों में घरेलू उपभोग के लिए, पन्द्रह लाख रुपये से अधिक के कुल मूल्य तक उक्त माल की प्रथम निकासी की बाबत, जिसकी निकासी किसी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल को या उसके पञ्चात् की जाती है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन जारी की गई और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना के साथ पठित) उक्त माल के अधीन उस पर उद्घरण्य समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देनी है जितना ऐसे शुल्क के पचास प्रतिशत से अधिक है :

परन्तु, एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने में इस अधिसूचना के अधीन शुल्क की घटी दर पर उक्त माल की निकासी का कुल मूल्य किसी वित्तीय वर्ष में पन्द्रह लाख रुपये से अधिक नहीं होगा।

2. इस अधिसूचना की कोई बात ऐसे विनिर्माता को लागू नहीं होगी,—

- (i) यदि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से घरेलू उपभोग के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद-शुल्क माल की निकासी का कुल मूल्य बीस लाख रुपये से अधिक हो गया हो ;
- (ii) यदि उसके द्वारा या उसकी ओर एक या अधिक कारखानों से घरेलू उपभोग के लिए, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त माल की निकासी का कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपये से अधिक हो गया हो।

3. जहाँ किसी विनिर्माता ने पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उक्त माल की निकासी नहीं की है या पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1 अगस्त को या उसके

पश्चात् प्रथम बार उक्त माल की निकासी की है, वहाँ इस अधिसूचना में अन्तर्बिष्ट छूट ऐसे विनिर्माणों को लागू होगी,—

(क) यदि वह सहायक उत्पाद-शुल्क कलक्टर के पास इस आणव की घोषणा काबल कर देता है,—

(i) कि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों में घरेलू उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद-शुल्क माल की निकासी का कुल मूल्य बीस लाख रुपए से अधिक होने का संभावना नहीं है ; और

(ii) कि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों में घरेलू उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त माल की निकासी का कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपए से अधिक होने का संभावना नहीं है ; और

(ख) (i) यदि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों में घरेलू उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद-शुल्क माल की निकासी का कुल मूल्य बीस लाख रुपए से अधिक नहीं है ; और

(ii) यदि उसके द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों में घरेलू उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त माल की निकासी का कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपए से अधिक नहीं है ।

4 इस अधिसूचना की कोई बात लागू नहीं होगी, —

(i) यदि एक या अधिक विनिर्माणों द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने में घरेलू उपभोग के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद-शुल्क माल की निकासी का कुल मूल्य बीस लाख रुपए से अधिक हो गया हो ;

(ii) यदि एक या अधिक विनिर्माणों द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने में घरेलू उपभोग के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त माल की निकासी का कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपए से अधिक हो गया हो ।

5. जहाँ उक्त माल की निकासी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में किसी कारखाने से नहीं की गई है या उसकी निकासी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 1 अगस्त को या उसके पश्चात् प्रथम बार की गई है, वहाँ इस अधिसूचना में अन्तर्बिष्ट छूट लागू नहीं होगी,—

(i) यदि एक या अधिक विनिर्माणों द्वारा या उनकी ओर से ऐसे कारखाने में घरेलू उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद-शुल्क माल की निकासी का कुल मूल्य बीस लाख रुपए से अधिक हो जाता है ;

(ii) यदि एक या अधिक विनिर्माणों द्वारा या उनकी ओर से ऐसे कारखाने में घरेलू उपभोग के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त माल की निकासी का कुल मूल्य पन्द्रह लाख रुपए से अधिक हो जाता है ।

स्पष्टीकरण 1.—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "मूल्य" शब्द में वह मूल्य अभिप्रेत है जिसका अन्वयार्थ केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 4 के उपबंधों के अनुसार किया जाता है ।

स्पष्टीकरण 2.—इस अधिसूचना के अधीन निकासी के कुल मूल्य की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, उक्त माल की निकासी जिसको केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) के अधीन जारी की गई और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिसूचना द्वारा उस पर उद्बोध्यणीय सशस्त्र उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त है, हिसाब में नहीं ली जाएगी, किन्तु कोई ऐसी निकासी जिसकी बाबत भारत सरकार के द्वारा

मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 80/80-केंद्रीय उत्पादन शुल्क, तारीख 19 जून, 1980 और सं० 43/82-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982 के अधीन कोई छूट प्राप्त कर ली गई है, हिसाब में ली जाएगी ।

No. 44/81 CENTRAL EXCISES

G.S.R. 103(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts synthetic organic dyestuffs (including pigment dyestuffs) and synthetic organic derivatives used in any dyeing process, falling under Item No. 14D of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), (hereinafter referred to as the said goods), in respect of the first clearances of the said goods for home consumption by or on behalf of a manufacturer from one or more factories upto an aggregate value not exceeding rupees fifteen lakhs, cleared on or after the 1st day of April in any financial year, from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Item [read with any other notification issued under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in force for the time being] as is in excess of fifty per cent. of such duty.

Provided that the aggregate value of clearances of the said goods from any factory by or on behalf of one or more manufacturers at the reduced rate of duty under this notification shall not exceed rupees fifteen lakhs in any financial year.

2. Nothing contained in this notification shall apply to a manufacturer,—

(i) if the aggregate value of clearances of all excisable goods by him or on his behalf, for home consumption from one or more factories, during the preceding financial year, had exceeded rupees twenty lakhs;

(ii) if the aggregate value of clearances of the said goods by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during the preceding financial year, had exceeded rupees fifteen lakhs.

3. Where a manufacturer has not cleared the said goods in the preceding financial year, or has cleared the said goods for the first time on or after the 1st day of August in the preceding financial year, the exemption contained in this notification shall be applicable to such manufacturer,—

(a) if he files a declaration with the Assistant Collector of Central Excise,—

(i) that the aggregate value of clearances of all excisable goods by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during the financial year is not likely to exceed rupees twenty lakhs; and

(ii) that the aggregate value of clearances of the said goods by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during the financial year is not likely to exceed rupees fifteen lakhs; and

(b) (i) if the aggregate value of clearances of all excisable goods by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during the financial year does not exceed rupees twenty lakhs, and

(ii) if the aggregate value of clearances of the said goods by him or on his behalf, for home consumption, from one or more factories, during the financial year does not exceed rupees fifteen lakhs.

4. Nothing contained in this notification shall apply,—

- (i) if the aggregate value of clearances of all excisable goods from any factory by or on behalf of one or more manufacturers, for home consumption, during the preceding financial year, had exceeded rupees twenty lakhs,
- (ii) if the aggregate value of clearances of the said goods from any factory by or on behalf of one or more manufacturers, for home consumption, during the preceding financial year, had exceeded rupees fifteen lakhs.

5. Where the said goods have not been cleared from any factory in the preceding financial year, or have been cleared for the first time on or after the 1st day of August in the preceding financial year, the exemption contained in this notification shall not be applicable,—

- (i) if the aggregate value of clearances of all excisable goods from such factory by or on behalf of one or more manufacturers, for home consumption, during the financial year, exceeds rupees twenty lakhs,
- (ii) if the aggregate value of clearances of the said goods from such factory by or on behalf of one or more manufacturers, for home consumption, during the financial year, exceeds rupees fifteen lakhs.

Explanation I.—For the purposes of this notification the expression “value” means the value as determined in accordance with the provisions of section 4 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

Explanation II.—For the purposes of computing the aggregate value of clearances under this notification, the clearances of the said goods which are exempted from whole of the duty of excise leviable thereon by any other notification issued under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and for the time being in force, shall not be taken into account, but the clearances, if any, in respect of which any exemption has been availed of under the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) Nos. 80/80-Central Excises, dated the 19th June, 1980 and 43/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982 shall be taken into account.

सं० 43/82.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 104(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 117/66-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 जुलाई, 1966 को अधिकांश करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 148 के अधीन आने वाली और विनिर्माता के कारखाने से सरकारी विभागों को, जिनके अन्तर्गत रेल, स्थानीय निकाय और अस्पताल हैं, सीधे प्रवाय की गई पेटेंट या एकायत औषध को उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से, जो कीमत के, जिसके अन्तर्गत ऐसे प्रवाय के लिए पश्कारों के बीच गुंथत संविदा के निबन्धनों के अधीन नियत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नहीं है, आधार पर संगणित मूल्य के गाने बाहर प्रणिगत से अधिक है, छूट देती है,

परन्तु पूर्वोक्त छूट केवल तभी अनुज्ञेय होगी यदि ऊपर निदिष्ट कीमत ऐसे प्रवायों के बारे में विनिर्माता द्वारा वास्तव में प्रसारित की गई कीमत है और उसके समर्थन में साक्ष्य केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, ‘विनिर्माता’ के अन्तर्गत किसी क्षेत्र के प्रति निर्देश से उस क्षेत्र में अपना कारखाना चलाये या उसमें स्थित शाखा कार्यालय है।

प्रार० के० चक्रवर्ती, उप सचिव

No. 45/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 104(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 117/66-Central Excises, dated the 16th July, 1966, the Central Government hereby exempts patent or proprietary medicines, falling under Item No. 14E of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and supplied directly from the factory of the manufacturer to Government Departments including Railways, local bodies and hospitals from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of 12½% of the value calculated on the basis of price excluding Central Excise duty fixed under the terms of relevant contract between the parties for such supply:

Provided that the aforesaid exemption shall be admissible only if the price referred to above represents the price actually charged by the manufacturer in respect of such supplies and evidence in support of that is produced before the Central Excise Officer.

Explanation.—For the purposes of this notification, manufacturer, includes with reference to any area his sole distributor in that area or branch office situated therein.

R.K. CHAKRABARTI, Deputy Secy.

सं० 46/82.—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 105(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 158 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाली निम्न घनत्व पालिथिलीन को, उस पर उद्ग्रहणीय मसुदा उत्पाद-शुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते छूट देती है, अर्थात् :—

- (i) किसी ऐसे अधिकारी के, जो सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो, समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाता है कि ऐसी निम्न घनत्व पालिथिलीन ऐसे पटलित कागज के, जिसका दूध को पैक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, विनिर्माण से प्रयोग के लिए आणवित है; और
- (ii) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उपरिर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है।

NO. 46/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 105(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts low density polyethylene, falling under sub-item (1) of Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon, subject to the following conditions, namely:—

- (i) It is proved to the satisfaction of an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise

that such low density polyethylene is required for use in the manufacture of laminated paper to be used for packaging of milk: and

- (ii) the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944 is followed.

सं० 47/82-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 106(अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 15क के अन्तर्गत आने वाले धातुकनीकृत फाइबर को, उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना मूल्य के आठ प्रतिशत से अधिक है।

NO. 47/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R.106(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts vulcanized fibres, falling under Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of eight percent ad valorem.

सं० 48/82-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 107(अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 15क(1) के अन्तर्गत आने वाले गैर-प्लास्टिकृत सेलुलोज नाइट्रेट को, उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना मूल्य के आठ प्रतिशत से अधिक है।

No. 48/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 107 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts non-plasticised cellulose nitrate, falling under Item No. 15A (1) of the First Schedule to the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of eight per cent. ad valorem.

सं० 49/82-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 108(अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 15क के अन्तर्गत आने वाले सेलोफेन, अर्थात् पुनर्योजित सेलुलोज की कोई फिल्म उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से छूट देती है जितना मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक है।

No. 49/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 108 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts cellophane, that is, any film or sheet of regenerated cellulose, falling under Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excise and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of twenty per cent. ad valorem.

सं० 50/82-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 109(अ)—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 15क की उपमद (1) में उल्लिखित सामग्री की कुछ वस्तुएं बिना विशेषक, 1982 के खंड 49 द्वारा उक्त मद की उपमद (2) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट की गई हैं।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त उपमद (1) में उल्लिखित सामग्री की ऐसी वस्तुओं को (जिन्हें हमसे इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है), जो उक्त मद सं० 15क में विनिर्दिष्ट नहीं की गई हैं, किन्तु उक्त मद के अधीन वर्गीकृत की जा सकती हैं और जिनको भारत सरकार के विपणन मंत्रालय (राजस्व और धीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 68/79 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 29 मार्च, 1971 लागू होगी है तथा जिनकी 28 फरवरी, 1982 को प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान दो लाख पचास हजार रुपये से अधिक के कुल मूल्य तक जिसके अन्तर्गत उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाले माल की निकासी का कुल मूल्य, यदि कोई हो, भी है, किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से घरेलू उपयोग के लिए निकासी की जाती है, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है :

परन्तु यह तब जब कि किसी अधिकारी का जो सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो, यह रामाधान हो जाता है कि ऐसे औद्योगिक एकक में जिसमें निकासी किये जाने वाले उक्त माल का विनिर्माण किया जाता है, स्थापित संयंत्र और मशीनरी पर समय-समय पर किये गये पूंजी विनिधान के मूल्य की कुल राशि बीस लाख रुपये से अधिक नहीं है :

परन्तु यह और कि एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने से इस अधिसूचना के अधीन शुल्क की शून्य दर पर उक्त माल की ऐसी प्रथम निकासी का, जिसके अन्तर्गत उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाले माल की निकासी, यदि कोई हो, भी है, कुल मूल्य 28 फरवरी, 1982 को प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी दशा में दो लाख पचास हजार रुपये से अधिक नहीं होगा।

2. इस अधिसूचना में अन्तर्बिष्ट छूट लागू नहीं होगी यदि उक्त माल का कुल मूल्य जिसके अन्तर्गत उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाले माल की निकासी का, यदि कोई हो, मूल्य भी है, और जिसकी निकासी, यदि कोई हो, एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने से घरेलू उपयोग के लिये 1 अप्रैल, 1981 को प्रारम्भ होने वाली और 27 फरवरी, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान की जाती है, सत्ताईस लाख पचास हजार रुपये से अधिक हो गया हो।

3. इस अधिसूचना की कोई बात किसी ऐसे विनिर्माता को लागू नहीं होगी जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 56ग में निर्दिष्ट प्रारंभिक विनिर्माता है और जो उक्त नियम में अधिकृत विशेष प्रक्रिया का लाभ उठाता है।

स्पष्टीकरण 1—पूंजी विनिधान के मूल्य की कुल राशि का अवधारण करने समय, उस समय जब ऐसा विनिधान किया गया था, विनिधान का अंकित मूल्य ही हिसाब में लिया जाएगा, किन्तु ऐसे संयंत्र और मशीनरी पर जो किसी औद्योगिक एकक से स्थायी तौर पर हटा दी गई है या

किसी प्रयोग के लिए शरीरगत द्वारा दी गई है, किए गए विनिर्माण का मूल्य ऐसे अवधारण में अवर्जित कर दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण 2—इस अधिसूचना के अधीन (जिसके अन्तर्गत उक्त पैरा 2 नहीं है) निकासी के मूल्य की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, उक्त माल की,—

- (क) जिसको केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) के अधीन जारी की गई और तत्पश्चात् प्रयुक्त किसी अन्य अधिसूचना द्वारा, उस पर उद्घरणयोग्य समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त है, निकासी की, या
- (ख) उक्त नियम 56ग के अपेक्षाओं के अधीन किसी ऐसे विनिर्माता द्वारा जो उक्त नियमों के नियम 56ग में निर्दिष्ट द्वितीयक विनिर्माता है, निकासी को जिसके अन्तर्गत उक्त नियम 56ग के उप-नियम (1) के चौथे परन्तुक के अनुसार की गई निकासी नहीं है,

हिसाब में नहीं लिया जाएगा।

स्पष्टीकरण 3—इस अधिसूचना के पैरा 2 के अधीन निकासी के मूल्य की संगणना करने समय के लिए, उक्त माल की,—

- (क) जिसको केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और समक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्घरणयोग्य समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त है, किन्तु जो उक्त पहली अनुसूची की नद सं० 15क की उपनद (1) में उल्लिखित सामग्री की वस्तु नहीं है, निकासी की; या
- (ख) उक्त नियम 56ग के उपबन्धों के अधीन किसी ऐसे विनिर्माता द्वारा जो उक्त नियमों के नियम 56ग में निर्दिष्ट द्वितीयक विनिर्माता है, निकासी को जिसके अन्तर्गत उक्त नियम 56ग के उप-नियम (1) के चौथे परन्तुक के अनुसार की गई निकासी नहीं है,

हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

No. 50/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 109 (E).—Whereas certain articles of materials described in sub-item (1) of Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act 1944 (1 of 1944) have been specified under sub-item (2) of the said Item by clause 49 of the Finance Bill, 1982;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts articles of materials described in the said sub-item (1) as have not been specified in the said Item No. 15A, but classifiable under the said Item (hereinafter referred to as the said goods) and to which the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 68/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971, applies and cleared for home consumption by or on behalf of a manufacturer from one or more factories upto an aggregate value not exceeding rupees two lakhs and fifty thousand, including the value of clearances of goods, falling under Item No. 68 of the said First Schedule, if any, during the period commencing on the 28th day of February, 1982 and ending on the 31st day of March, 1982, from the whole of the duty of excise leviable thereon:

Provided that an Officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the sum total of the value of the capital investment made from time to time on plant and machinery installed in the industrial unit in which the said goods, under clearance, are manufactured is not more than rupees twenty lakhs:

1378 GI/81—3

Provided further that the total value of the first clearances of the said goods, including the clearances of goods, falling under Item No. 68 of the said First Schedule, if any, from any factory by or on behalf of one or more manufacturers at nil rate of duty under this notification shall in no case exceed rupees two lakhs and fifty thousand during the period commencing on the 28th day of February, 1982 and ending on the 31st day of March, 1982.

2. The exemption contained in this notification shall not apply if the total value of the said goods cleared, if any, including the value of clearance of goods, falling under Item No. 68 of the said First Schedule, if any, for home consumption from any factory by or on behalf of one or more manufacturers, during the period commencing on the 1st day of April, 1981 and ending on the 27th day of February, 1982 had exceeded rupees twenty-seven lakhs and fifty thousand.

3. Nothing contained in this notification shall apply to a manufacturer who is a primary manufacturer as referred to in rule 56C of the Central Excise Rules, 1944, and who avails of the special procedure laid down in the said rule.

Explanation I.—While determining the sum total of the value of capital investment, only the face value of the investment at the time when such investment was made shall be taken into account, but the value of the investment made on plant and machinery which have been removed permanently from the industrial unit or rendered unfit for any use shall be excluded from such determination.

Explanation II.—For the purpose of computing the value of clearances under this notification (except paragraph 2 thereof), the clearances of the said goods,—

- (a) which are exempted from the whole of the duty of excise leviable thereon by any other notification issued under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and for the time being in force; or
- (b) by a manufacturer who is a secondary manufacturer as referred to in rule 56C of the said rules, under the provisions of the said rule 56C, except the clearances effected in terms of the fourth proviso to sub-rule (1) of the said rule 56C,

shall not be taken into account.

Explanation III.—For the purpose of computing the value of clearances under paragraph 2 of this notification the clearances of the said goods—

- (a) which are exempted from the whole of the duty of excise leviable thereon under the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), but not being articles of materials described in sub-item (1) of Item No. 15A of the First Schedule; or
- (b) by a manufacturer who is a secondary manufacturer as referred to in rule 56C of the said rules, under the provisions of the said rule 56C, except the clearances effected in terms of the fourth proviso to sub-rule (1) of the said rule 56C,

shall not be taken into account.

सं० 51/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकां० 110(अ).—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और समक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की नद सं० 15क की उपनद (1) में उल्लिखित सामग्री की कुछ वस्तुएं बिना विशेषक

1982 के खंड 49 द्वारा उक्त मद की उपमद (2) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट की गई है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त उपमद (1) में उल्लिखित सामग्री की ऐसी वस्तुओं को (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त माल कहा गया है) जो उक्त मद सं० 15क में विनिर्दिष्ट नहीं की गई है, किन्तु उक्त मद के अधीन वर्गीकृत की जा सकती है और जिनको भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 68/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971 लागू होती है तथा जिनकी 1 अप्रैल, 1982 को प्रारंभ होने वाली और वित्त विधेयक, 1982 के अधिनियम की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान तीन लाख पचहत्तर हजार रुपये से अधिक के मूल्य तक जिसके अन्तर्गत उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाले माल की निकासी का मूल्य, यदि कोई हो, किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से घरेलू उपभोग के लिये निकासी की जाती है उन पर उद्घाटनीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देनी है :

परन्तु यह तब जब कि किसी अधिकारी का जो सहायक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर की पंक्ति से नीचे का न हो, यह समाधान हो जाता है कि ऐसे औद्योगिक एकक में जिनमें निकासी किये जाने वाले उक्त माल का विनिर्माण किया जाता है, स्थापित संयंत्र और मशीनरी पर समय-समय पर किये गये पूंजी विनिधान के मूल्य की कुल राशि बीस लाख रुपये से अधिक नहीं है।

परन्तु यह और कि एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने में इस अधिसूचना के अधीन शुल्क की शून्य दर पर उक्त माल की ऐसी प्रथम निकासी का जिसके अन्तर्गत उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाले माल की निकासी, यदि कोई हो, भी है, कुल मूल्य 1 अप्रैल, 1982 को प्रारंभ होने वाली और वित्त विधेयक, 1982 के अधिनियम की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी भी वषा में तीन लाख पचहत्तर हजार रुपये से अधिक नहीं होगा।

2. इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट छूट लागू नहीं होगी यदि उक्त माल का कुल मूल्य जिसके अन्तर्गत उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाले माल की निकासी का, यदि कोई हो, मूल्य भी है, और जिसकी निकासी, यदि कोई हो, एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी कारखाने में घरेलू उपभोग के लिये वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान की जाती है, तीस लाख रुपये से अधिक हो गया हो।

3. इस अधिसूचना की कोई बात किसी ऐसे विनिर्माता को लागू नहीं होगी जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 56ग में निविष्ट प्रारंभिक विनिर्माता है और जो उक्त नियम में अधिकृत विशेष प्रक्रिया का लाभ उठाता है।

स्पष्टीकरण 1—पूंजी विनिधान के मूल्य की कुल राशि का अन्वेषण करते समय, उस समय जब ऐसा विनिधान किया गया था, विनिधान का अंकित मूल्य ही हिसाब में लिया जायेगा, किन्तु ऐसे संयंत्र और मशीनरी पर जो किसी औद्योगिक एकक से स्थायी तौर पर हटा दी गई है या किसी प्रयोग के लिये अयोग्य ठहरा दी गई है, किये गये विनिधान का मूल्य ऐसे अन्वेषण से अपवर्जित कर दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण 2—इस अधिसूचना के अधीन (जिसके अन्तर्गत उसका पैरा 2 नहीं है) निकासी के मूल्य की संगणना करने के प्रयोजन के लिये, उक्त माल की,—

(क) जिसको केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) के अधीन जारी की गई और तत्समय प्रवृत्त

किसी अन्य अधिसूचना द्वारा, उस पर उद्घाटनीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त है, निकासी को; या

(ख) उक्त नियम 56ग के उपबन्धों के अधीन किसी ऐसे विनिर्माता द्वारा जो उक्त नियमों के नियम 56ग में निविष्ट द्वितीयक विनिर्माता है, निकासी को जिसके अन्तर्गत उक्त नियम 56ग के उप-नियम (1) के लिये परम्पक के अनुसार की गई निकासी नहीं है,

हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

स्पष्टीकरण 3—इस अधिसूचना के पैरा 2 के अधीन निकासी के मूल्य की संगणना करने के प्रयोजन के लिये, उक्त माल की,—

(क) जिसको केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और तत्समक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची के अधीन उस पर उद्घाटनीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त है, किन्तु जो उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 15क की उपमद (1) में उल्लिखित सामग्री की वस्तु नहीं है, निकासी को; या

(ख) उक्त नियम 56ग के उपबन्धों के अधीन किसी ऐसे विनिर्माता द्वारा जो उक्त नियमों के नियम 56ग में निविष्ट द्वितीयक विनिर्माता है, निकासी को जिसके अन्तर्गत उक्त नियम 56ग के उप-नियम (1) के लिये परम्पक के अनुसार की गई निकासी नहीं है,

हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

4. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1982 को प्रवृत्त होगी।

No. 51/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 110 (E).—Whereas certain articles of materials described in sub-item (1) of Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) have been specified under sub-item (2) of the said Item by clause 49 of the Finance Bill, 1982;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts articles of materials described in the said sub-item (1) as have not been specified in the said Item No. 15A, but classifiable under the said Item (hereinafter referred to as the said goods) and to which the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 68/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971, applies and cleared for home consumption by or on behalf of a manufacturer from one or more factories up to an aggregate value not exceeding rupees three lakhs and seventy-five thousand, including the value of clearances of goods falling under Item No. 68 of the said First Schedule, if any, during the period commencing on the 1st day of April, 1982, and ending on the date of enactment of the Finance Bill, 1982, from the whole of the duty of excise leviable thereon:

Provided that an Officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise is satisfied that the sum total of the value of the capital investment made from time to time on plant and machinery installed in the industrial unit in which the said goods, under clearance, are manufactured is not more than rupees twenty lakhs:

Provided further that the total value of the first clearances of the said goods, including the clearances of goods, falling under Item No. 68 of the said First Schedule, if any, from any factory by or on behalf of one or more manufacturers at nil rate of duty under this notification shall in no case exceed rupees three lakhs and seventy-five thousand during the period commencing on the 1st day of April, 1982 and ending on the date of enactment of the Finance Bill, 1982.

2. The exemption contained in this notification shall not apply if the total value of the said goods cleared, if any, including the value of clearances of goods, falling under Item No. 68 of the said First Schedule, if any, for home consumption, from any factory by or on behalf of one or more manufacturers, during the financial year 1981-82 had exceeded rupees thirty lakhs.

3. Nothing contained in this notification shall apply to a manufacturer who is a primary manufacturer as referred to in rule 56C of the Central Excise Rules, 1944, and who avails of the special procedure laid down in the said rule.

Explanation I.—While determining the sum total of the value of capital investment, only the face value of the investment at the time when such investment was made shall be taken into account, but the value of the investment made on plant and machinery which have been removed permanently from the industrial unit or rendered unfit for any use shall be excluded from such determination.

Explanation II.—For the purpose of computing the value of clearances under this notification (except paragraph 2 thereof), the clearances of the said goods, —

- which are exempted from the whole of the duty of excise leviable thereon by any other notification issued under sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and for the time being in force; or
- by a manufacturer who is a secondary manufacturer as referred to in rule 56C of the said rules, under the provisions of the said rule 56C, except the clearances effected in terms of the fourth proviso to sub-rule (1) of the said rule 56C.

shall not be taken into account.

Explanation III.—For the purpose of computing the value of clearances under paragraph 2 of this notification the clearances of the said goods—

- which are exempted from the whole of the duty of excise leviable thereon under the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), but not being articles of materials described in sub-item (1) of Item No. 15A of the said First Schedule; or
- by a manufacturer who is a secondary manufacturer as referred to in rule 56C of the said rules, under the provisions of the said rule 56C, except the clearances affected in terms of the fourth proviso to sub-rule (1) of the said rule 56C, shall not be taken into account.

4. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1982.

सं. 52/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां.कां.निं. 111(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और वीमा विभाग) की अधिसूचना सं. 68/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्—

उक्त अधिसूचना में,—

- “सभी प्रकार की प्लास्टिक की वनी द्रव्य” शब्दों के स्थान पर “सभी मात” शब्द रखे जायेंगे;

(ख) खण्ड (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जायेंगे, अर्थात्—

“(1) पुनर्योजित सेलूलोस की फिल्म या शीट और पॉलिएस्टर फिल्म, चाहे लेकर लेपित या पटलीकृत या धातु लेपित हों या न हों;

(2) कठे प्लास्टिक बोर्ड, शीटिंग, शीट और फिल्में, चाहे लेकर लेपित या पटलीकृत या धातु लेपित हों या न हों; और

(3) नम्य पोलिनाइल क्लोराइड शीटिंग, शीट, फिल्में, चाहे लेकर लेपित या पटलीकृत या धातु लेपित हों या न हों और ले-प्लेट द्रव्य जिनमें कोई टेक्सटाइल सामग्री न हो;”;

(ग) “उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से” शब्दों के स्थान पर “उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से जितना मूल्य के आठ प्रतिशत से अधिक है” शब्द रखे जायेंगे।

No. 52/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 111(E).—In exercise of the powers conferred by sub rule (1) of rule 8 of the Central Excises Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance No. 68/71—Central Excises, dated the 29th May, 1971, namely :—

In the said notification,—

(a) for the words “articles made of plastics, all sorts”, the words “all goods” shall be substituted;

(b) for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely :—

“(i) film or sheet of regenerated cellulose and polyester films, whether lacquered or laminated or metallised or not;

(ii) rigid plastic boards, sheeting, sheets and films, whether lacquered or laminated or metallised or not; and

(iii) flexible polyvinyl chloride sheeting, sheets, films; whether lacquered or laminated, or metallised or not and lay flat tubings not containing any textile material;”;

(c) for the words “from the whole of the duty of excise leviable thereon”, the words “from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of eight per cent. ad valorem” shall be substituted.

सं. 53/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां.कां.निं. 112(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और समक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मंत्र सं. 15क(2) के अन्तर्गत आने वाले बोर्डों, शीटों, फिल्मों और ले-प्लेट द्रव्यों को, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है.

परन्तु ऐसी छूट निम्नलिखित को लागू नहीं होगी—

(i) पुनर्योजित सेलूलोस की फिल्म या शीट और पॉलिएस्टर फिल्म, चाहे वे लेकर लेपित या पटलीकृत या धातु लेपित हों या न हों;

(ii) कठे प्लास्टिक बोर्ड, शीटिंग, शीटें और फिल्में, चाहे वे लेकर लेपित, पटलीकृत या धातु लेपित हों या न हों, और

- (iii) नम्य पोलिबाइनिल क्लोराइड शीटिंग, शीट, फिल्म, चाहे वे लैकर लेपित, पटसीकृत या धातु लेपित हों या न हों और ले-फ्लैट ट्यूबों जिनमें कोई टेक्सटाइल सामग्री न हो।

परन्तु यह और कि—

- (क) ऐसी वस्तुएं उक्त मद की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाली ऐसी कृत्रिम या संश्लिष्ट रेजिन या प्लास्टिक सामग्री या अन्य सामग्री से उत्पादित की गई हैं जिन पर, यथान्वयित, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन, अतिरिक्त शुल्क का पहलू हो संभाव्य कर दिया गया है, या

- (ख) ऐसी वस्तुएं प्लास्टिक के स्त्रेप से उत्पादित की गई हैं।

स्पष्टीकरण:—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए—

- (i) प्लास्टिक से बनी वस्तु के सम्बन्ध में 'नम्य' पद से अभिप्रेत है वह वस्तु जिसमें, जब उसका प्लास्टिक को कठोरता के लिए (ए एस टी एम अधिधान डी—474—63), प्लास्टिक के आनमन गुण के लिए (ए एस टी एम अधिधान डी—790—63) प्लास्टिक के तनन गुण के लिए (ए एस टी एम अधिधान डी—638—64टी) या पतली प्लास्टिक शीटिंग के तनन गुण के लिए (ए एस टी एम अधिधान डी—882—64टी), परीक्षण की पद्धति के अनुसार परीक्षण किया जाए तो उसमें 23 डिग्री सेंटीग्रेड और 50 प्रतिशत अपेक्षित आद्रता पर, 700 किलो-ग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर से अधिक का सापेक्ष या प्रत्या-स्वता, चाहे वह आनति में हो या तनन में, होती है।

- (ii) प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के सम्बन्ध में 'कड़े' पद से अभिप्रेत है खण्ड (i) में यथा परिभाषित 'नम्य' वस्तुओं से भिन्न सभी वस्तुएं।

No. 53/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 112(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excises Rules, 1944, the Central Government hereby exempts boards, sheeting, sheets, films and lay flat tubings, falling under Item No. 15A(2) of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon :

Provided that no such exemption shall apply to—

- film or sheet of regenerated cellulose and polyester films, whether lacquered or laminated or metallised or not;
- rigid plastic boards, sheeting, sheets and films, whether lacquered or laminated or metallised or not; and
- flexible polyvinyl chloride sheeting, sheets, films, whether lacquered or laminated or metallised or not and lay flat tubings not containing any textile material;

Provided further that—

- such articles are produced out of the artificial or synthetic resins or plastic materials or other materials falling under sub-item (1) of the said Item, on which the duty of excise or the additional duty under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, has already been paid, or
- such articles are produced out of scrap of plastics.

Explanation.—For the purposes of this notification—

- (i) the expression 'flexible' in relation to an article made of plastics, means the article which has a modulus of elasticity either in flexure or in tension of not over 700 kilograms per square centimetre at 23 degrees

Centigrade and 50 per cent. relative humidity when tested in accordance with the method of test for stiffness of plastics (ASTM Designation D. 474—63), for flexural properties of plastics (ASTM Designation D—790—63), for Tensile properties of plastics (ASTM Designation D—638—64T), or for Tensile properties of Thin plastic sheeting (ASTM Designation D—882—64T);

- (ii) The expression "rigid", in relation to an article made of plastic, means all articles other than 'flexible' articles as defined in clause (i).

सं० 54/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का०नि० 113(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, ऐसे माप को, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1914 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 68 के अन्तर्गत आते और जो अब वित्त विधेयक 1982 के खण्ड 49 द्वारा, जो खंड अन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, उक्त अनुसूची की मद सं० 15क की उपमद (1) में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, और जिनकी किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से 28 फरवरी, 1982 से प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान घरेलू उपयोग के लिए निकासी की गई है, बायठ हजार रुपए से अधिक मूल्य तक, छूट देती है :

परन्तु इस अधिसूचना में अर्न्तविष्ट छूट ऐसे किसी विनिर्माता को लागू नहीं होगी जिसकी एक या अधिक कारखाने से घरेलू उपयोग के लिए उक्त साल की निकासी, 1 अप्रैल, 1981 से प्रारम्भ होने वाली और 27 फरवरी, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, 13.75 लाख रुपए से अधिक हो गई हो।

श्री० लक्ष्मी कुमारन्, अवर सचिव

No. 54/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 113(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts goods which were falling under Item No. 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and which have now been specified in sub-item (1) of Item No. 15A of the said Schedule by clause 49 of the Finance Bill, 1982, which clause as, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, upto a value not exceeding rupees sixty two thousands cleared for home consumption during the period commencing on the 28th day of February, 1982 and ending on the 31st day of March, 1982, by or on behalf of a manufacturer from one or more factories :

Provided that the exemption contained in this notification would not be applicable to a manufacturer whose clearances of the said goods, for home consumption, from one or more factories, during the period commencing on the 1st day of April, 1981 and ending on the 27th day of February, 1982, had exceeded Rs. 13.75 lakhs.

V. LAKSHMI KUMARAM, Under Secy.

सं० 55/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का०नि० 114(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए यह निर्देश देती है कि इसमें उपाखण्ड सारणी के स्तम्भ

(2) में विनिर्दिष्ट, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, यथास्थिति, राजस्व और वीमा विभाग या राजस्व विभाग की प्रत्येक अधिसूचनाएं, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से यथास्थिति संशोधित या और संशोधित की जाएंगी।

सारणी

क्र० सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	70/71-केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क, तारीख 29 मई, 1971	उक्त प्रत्येक अधिसूचना में जहाँ कहीं भी "पटलीकृत" शब्द आया है उसके स्थान पर "लेकर लेपित या धातु लेपित या पटलीकृत" शब्द रखे जाएंगे;
2.	71/71-केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क, तारीख 29 मई, 1971	
3.	138/72-केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क, तारीख 27 मई, 1972	उक्त अधिसूचना में, "मद सं० 15क के अन्तर्गत आने वाले कृत्रिम या संश्लिष्ट रेजिन और प्लास्टिक सामग्री और सेलुलोज एस्टर और ईथर" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "मद सं० 15क(1) में वर्णित माल" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;
4.	5/80-केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क, तारीख 27 फरवरी, 1980	उक्त अधिसूचना में, "कृत्रिम या संश्लिष्ट रेजिन और प्लास्टिक सामग्री और सेलुलोज एस्टर और ईथर" शब्दों के स्थान पर "वर्णन के माल" शब्द रखे जाएंगे।
5.	26/81-केन्द्रीय उत्पाद- शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1981	उक्त अधिसूचना में प्रारम्भिक भाग में "मद सं० 15खख" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "मद सं० 15क और 15खख" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

जितेन्द्र शर्मा, अधीक्षक सचिव

No. 55/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 114(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue and Insurance or Department of Revenue, as the case may be, specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

S. No.	Notification No. and date	Amendment
1.	70/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971.	In each of the said notifications, for the words "laminated"
2.	71/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971.	wherever it occurs, the words "lacquered or metallised or laminated" shall be substituted;

3. 138/72-Central Excises, In the said notification, for the words, figure and letter dated the 27th May, 1972.

"artificial or synthetic resins and plastic materials and cellulose esters and ethers falling under Item No. 15A", the words, figure and letter "goods described in Item No. 15A(1)" shall be substituted;

4. 5/80-Central Excises, In the said notification, for the words "artificial or synthetic resins and plastic materials and cellulose esters and ethers in any form", the words goods of the description" shall be substituted.

5. 26/81-Central Excises, In the said notification, in the opening portion, for the words, figure and letters "Item No. 15BB", the words, figures and letters "Item Nos. 15A and 15BB" shall be substituted.

J.K. BATRA, Under Secy.

सं० 56/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां०क्रा०नि० 115(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और वीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 116/66-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 जुलाई, 1966 का निम्नलिखित संशोधन करना है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "मद सं० 15क के अन्तर्गत आने वाले" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "मद सं० 15क के अन्तर्गत आने वाले" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

Nk. 56/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 115(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 116/66-Central Excises, dated the 9th July, 1966, namely:—

In the said notification, for the words, figures and letter "falling under Item No. 15B", the words, figure and letter "falling under Item No. 15A" shall be substituted.

सं० 57/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां०क्रा०नि० 116(अ) :—मेल्फोन, वित्त विधेयक, 1982 के खंड 19 द्वारा, जो खंड अंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 15क में विनिर्दिष्ट किया गया है;

और यह आशयित नहीं है कि पूर्वोक्त विधेयक के अधिनियमन के लक्ष्य रहते, के दौरान, उक्त पहली अनुसूची की मद सं० 15क और 15ख के अधीन ऐसे मेल्फोन पर उत्पाद-शुल्क उद्गृहीत और संग्रहीत किया जाना चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेलोफेन को, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 15ख के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क में, विलय विधेयक, 1982 के अधिनियमन तक छूट देती है।

No. 57/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 116(E).—Whereas cellophane has been specified in Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), by clause 49 of the Finance Bill, 1982, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law;

And whereas it is not intended that, pending the enactment of the Bill aforesaid, duties of excise should be levied and collected on such cellophane both under the Item Nos. 15A and 15B of the said First Schedule;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts, until the enactment of the Finance Bill, 1982, cellophane from the whole of the duty of excise leviable thereon under Item No. 15B of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

सं० 58/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकांनि० 117(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 95/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में उपाबद्ध सारणी में क्रम सं० 18 और उसमें सम्बद्ध प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

सारणी				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"19.	16क क	संश्लिष्ट रबड़	16	टायर, ट्यूब और फ्लैप
20.	64	कार्बन कज्जल	16	टायर, ट्यूब और फ्लैप
21.	65	रबड़ प्रसंस्करण रसायन	16	टायर, ट्यूब और फ्लैप"

No. 58/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 117(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 95/79-Central Excises, dated the 1st March, 1979, namely:—

In the Table annexed to the said notification, after S. No. 18 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:—

THE TABLE				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"19. 16AA	Synthetic rubber	16	Tyres, tubes and flaps.	
20. 64	Carbon black	16	Tyres, tubes and flaps.	
21. 65	Rubber processing chemicals	16	Tyres, tubes and flaps."	

सं० 59/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकांनि० 118 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 27/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1981 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में:—

- क्र० सं० 5 और उसमें सम्बद्ध प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा,
- क्र० सं० 2 के सामने स्तम्भ (3) में, खंड (iii) और उसमें सम्बद्ध प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

वी० लक्ष्मी कुमारन, अवसर सचिव

No. 59/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 118(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 27/81-Central Excises, dated the 1st March, 1981, namely:—

In the Table annexed to the said notification—

- S. No. 5 and the entries relating thereto shall be omitted
- in column (3) against S. No. 8, clause (iii) and the entries relating thereto shall be omitted.

V. LAKSHMI KUMARAN, Under Secy.

सं० 60/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकांनि० 119(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 55/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में:—

- प्रारम्भिक पैरा में, "प्लार्डबुड और बोर्डों" शब्दों के स्थान पर, "ब्लॉक बोर्ड" शब्द अन्तर्गत संपादित किया जाएगा;
- सारणी में:—

- क्र० सं० 2 के सामने, स्तम्भ (2) में, "ब्लॉक बोर्ड" शब्दों के स्थान पर, "ब्लॉक बोर्ड" शब्द अन्तर्गत संपादित किया जाएगा;

- क्र० सं० 7 और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
"8	मुसंस्कृत काष्ठ, सभी प्रकार के, चाहे बहुत शीट, ब्लॉक या किसी अन्य आकार में हों, जिसके अन्तर्गत मुसंस्कृत काष्ठ भी वर्तु है	मूल्य का बीस प्रतिशत"

जितेन्द्र बत्रा, अवसर सचिव

No. 60/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 119(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry

G.S.R. 122 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts converted types of paper and paper board (other than wall paper, art and chrome board) falling under sub-item (2) of Item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon, if such converted type of paper or paper board has been produced out of base paper or base paper board on which the appropriate duty of excise or the additional duty leviable under section 3, of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be has been paid:

Provided that such base paper or base paper board has not been produced out of pulp within the factory of production of the said converted type of paper or paper board.

Explanation.—For the purpose of this notification, the base paper or base paper board used in the manufacture of the said converted type of paper or paper board shall be deemed to have paid the appropriate duty of excise or the additional duty leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975, if it is purchased from the market.

सं० 64/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां० का० नि० 123 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 17 की उपमद (2) के अन्तर्गत आने वाले झुले पैपर बोर्ड को, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पन्न उत्पाद-शुल्क से निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात्—

- (i) किसी ऐसे अधिकारी के जो सहायक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर की पक्ष में नीचे का न हो, समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाता है कि ऐसा झुले पैपर बोर्ड ऐसे निम्न घनत्व पालिथिलीन पटलित कागज से जिसका दूध को पैक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, विनिर्माण में प्रयोग के लिए आशयित है; और
- (ii) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उपबर्णित प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है।

No. 64/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 123 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts duplex paper board, falling under sub-item (2) of Item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944, (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon subject to the following conditions, namely:—

- (i) it is proved to the satisfaction of an officer not below the rank of an Assistant Collector of Central Excise that such duplex paper board is required for use in the manufacture of low density polyethylene laminated paper to be used for packaging of milk; and
- (ii) the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944 is followed.

सं० 65/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां० का० नि० 124 (अ) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 17 के अन्तर्गत आने वाले निम्न घनत्व पालिथिलीन से पटलित कागज को, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पन्न उत्पाद शुल्क से इस शर्त के अधीन रहते हुए कि ऐसा कागज दूध को पैक करने के लिए आशयित है, छूट देती है।

No. 65/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 124 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts paper laminated with low density polyethylene, falling under Item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon subject to the condition that such paper is intended for packaging of milk.

सं० 66/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां० का० नि० 125 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों

का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 17 की उपमद (4) के अन्तर्गत आने वाली कागज या कागज बोर्ड की वस्तुओं को उस पर उद्ग्रहणीय सम्पन्न उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

परन्तु ऐसी कोई छूट मुद्रित बक्सों और मुद्रित कार्टनों को (जिनके अन्तर्गत बिपटे और मुड़े हुए मुद्रित बक्सों और बिपटे या मुड़े हुए मुद्रित कार्टन हैं) चाहे वे समुच्चयित या असमुच्चयित हों या न हों, लागू नहीं होगी।

No. 66/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 125 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts articles of paper or paper board, falling under sub-item (4) of Item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon:

Provided that no such exemption shall apply to printed boxes and printed cartons (including flattened or folded printed boxes and flattened or folded printed cartons) whether in assembled or unassembled condition.

सं० 67/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां० का० नि० 126 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 17 की उपमद (4) के अन्तर्गत आने वाली कागज या कागज बोर्ड की वस्तुओं को, उस पर उद्ग्रहणीय सम्पन्न उत्पाद-शुल्क से जो मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, इस शर्त के अधीन रहते हुए छूट देती है कि, उनके विनिर्माण में प्रयुक्त आधारी कागज या आधारी कागज बोर्ड के बारे में यथा स्थिति समुचित उत्पाद शुल्क या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अनिरिक्त शुल्क का संदाय पहले ही कर दिया गया है।

परन्तु इस अधिसूचना की कोई बात ऐसे विनिर्माता को लागू नहीं होगी जो आधारी कागज या आधारी कागज बोर्ड पर संदाय शुल्क के बारे में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 56 क के अधीन निहित प्रक्रिया का लाभ उठाता है।

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, उक्त वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त आधारी कागज या आधारी कागज बोर्ड के बारे में यह माना जाएगा कि उस पर समुचित उत्पाद-शुल्क या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अनिरिक्त शुल्क का संदाय कर दिया गया है यदि उसका क्रय बाजार में किया गया है।

No. 67/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 126 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts articles of paper or paper board, falling under sub-item (4) of Item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of fifteen per cent. *ad valorem* subject to the condition that the appropriate duty of excise or additional duty leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), as the case may be, has already been paid in respect of the base paper or base paper board used in their manufacture:

Provided that nothing contained in this notification shall apply to a manufacturer who avails of the special procedure prescribed under rule 56A of the Central Excise Rules 1944, in respect of the duty paid on the base paper or base paper board.

Explanation.—For the purpose of this notification, the base paper or base paper board used in the manufacture of the said articles shall be deemed to have paid the appropriate duty of excise or the additional duty leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975, if it is purchased from the market.

सं० 68/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 127(अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 17 की उपमद (4) के अन्तर्गत आने वाले मुद्रित कार्ड बोर्ड बक्से को (जिनके अन्तर्गत चपटे या मुड़े हुए मुद्रित कार्ड बोर्ड बक्से) हैं चाहे ये समुच्चयित या असमुच्चयित दशा में हों, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से, इस शर्त के अधीन रहते हुए छूट देती है कि ऐसे मुद्रित कार्ड बोर्ड बक्से वियानलाईयो की पैकिंग के लिए आशयित हैं।

NO. 68/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 127(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts printed card board boxes (including flattened or folded printed card board boxes) whether in assembled or unassembled condition, falling under sub-item (4) of Item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon subject to the condition that such printed card board boxes are intended for packing of match sticks.

सं० 69/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 128(अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऐसे माल को, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 68 के अन्तर्गत आने थे और जो अब वित्त विधेयक 1982 के खण्ड 49 द्वारा जो खण्ड अन्तर्लिप्त कर संग्रहण अधिनियम, 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है, उक्त अनुसूची की मद सं० 17 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं, और जिसकी किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से 28 फरवरी, 1982 से प्रारम्भ होने वाली और 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने अवधि के दौरान घरेलू उपभोग के लिए निकामी की गई है, बायठ हजार रुपए से अधिक मूल्य तक छूट देती है :

परन्तु इस अधिसूचना में अन्तर्लिप्त छूट ऐसे किसी विनिर्माता को लागू नहीं होगी जिसकी एक या अधिक कारखानों से घरेलू उपभोग के लिए उक्त माल की निकासी 1 अप्रैल, 1981 से प्रारम्भ होने वाली और 27 फरवरी, 1982 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान 13.75 लाख रुपए से अधिक हो गई हो।

No. 69/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 128 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts goods which were falling under Item No. 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and which have now been specified in Item No. 17 of the said Schedule by clause 49 of the Finance Bill, 1982, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, upto a value not exceeding rupees sixty-two thousand cleared for home consumption during the period commencing on the 28th day of February, 1982, upto Rs. 13.75 lakhs.

1982, and ending on the 31st day of March, 1982, by or on behalf of a manufacturer from one or more factories :

Provided that the exemption contained in this notification shall not be applicable to a manufacturer whose clearances of the said goods, for home consumption, from one or more factories, during the period commencing on the 1st day of April, 1981, and ending on the 27th day of February, 1982, had exceeded Rs. 13.75 lakhs.

सं० 70/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 129(अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि इसमें उपाखण्ड सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, यथास्थिति, (राजस्व और बीमा विभाग) या (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाएं, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की नक़्क़ाती प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से और संशोधित की जायेंगी।

सारणी

क्र०सं०	अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
(3)	(2)	(1)
1.	68/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 16 मार्च 1976	उक्त अधिसूचना से उपाखण्ड सारणी में क्रम सं० 3क और 4 और उनसे सम्बद्ध प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा।
2.	15/78-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 24 जनवरी, 1978	उक्त अधिसूचना में उपाखण्ड सारणी की क्रम सं० 2 के स्तम्भ (3) में, "30 प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्दों और अक्षरों के स्थान पर "32.5 प्रतिशत मूल्यानुसार" शब्द और अक्षर रखे जायेंगे।

No. 70/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 129 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) or (Department of Revenue), as the case may be, specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be further amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. No.	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	68/76—Central Excises, dated the 16th March, 1976.	In the Table annexed to the said notification, Serial Nos 3A and 4 and the entries relating thereto shall be omitted;

1. 15/78—Central Excises, In the Table annexed to the dated the 24th January, said notification, in Serial No. 2, in column (3), for the figures and word "30% ad-valorem", the figures and word "32.5% ad-valorem" shall be substituted.

सं० 71/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 130(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय-उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 108/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 24 अप्रैल, 1981 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के पहले परन्तुक में खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जायेगा, अर्थात्:—

"(1) उक्त माल का विनिर्माण उसी कारखाने के भीतर जिसमें उक्त माल का विनिर्माण किया गया है उत्पादित लुग्दी से किया गया है जिसमें बांस या काष्ठ से या दोनों के मिश्रण से तैयार की गई लुग्दी भार में पञ्चहत्तर प्रतिशत से कम नहीं है।"

No. 71/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 130 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 108/81—Central Excises, dated the 24th April, 1981, namely:—

In the said notification, in the first proviso, for the clause (i), the following clause shall be substituted, namely,—

"(i) the said goods are manufactured out of pulp containing not less than seventy-five per cent. by weight of pulp made from bamboo or wood or from a mixture of both, produced within the same factory in which the said goods are manufactured;"

सं० 72/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 131(अ).—केन्द्रीय उत्पाद सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग या राजस्व विभाग) या राजस्व और बैंकिंग विभाग, को निम्नलिखित अधिसूचनाओं को विधिवत करती है, अर्थात्:—

- सं० 46/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 24 अप्रैल 1971
- सं० 25/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 9 फरवरी 1976
- सं० 184/76-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 27 मई 1976
- सं० 71/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 अप्रैल 1977
- सं० 175/80-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 10 नवम्बर 1980

वी० लक्ष्मी कुमारन्, सचिव

No. 72/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 131(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the following notifications of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance or Department of Revenue), or the Department of Revenue and Banking, as the case may be, namely:—

- No. 46/71—Central Excises, dated the 24th April, 1971.

- No. 25/76—Central Excises, dated the 9th February, 1976.
- No. 184/76—Central Excises, dated the 27th May, 1976.
- No. 71/77—Central Excises, dated the 28th April, 1977.
- No. 175A/80—Central Excises, dated the 10th November, 1980.

V. LAKSHMI KUMARAN, Under Secy

सं० 73/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 132(अ).—केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) की धारा 3 की उपधारा (3) और वित्त विधेयक 1982 के खण्ड 50 के उपखण्ड (4) जो खण्ड प्रस्तावित कर-संग्रहण अधिनियम 1931 (1931 का 16) के अधीन उक्त विधेयक में की गई घोषणा के आधार पर विधि का बल रखता है के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 28/75-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च 1975 और वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 171/80-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख नवम्बर 1980 को अधिकृत करते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अधिसूची की मद सं० 18 के अंतर्गत आने वाले और इससे उपाखण्ड सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट कृत्रिम फाइबर और सूत को, जो संव्यवित्त से भिन्न हैं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1), अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) अधिनियम 1978 (1978 का 40) की धारा 3 की उपधारा (1) और उक्त वित्त विधेयक के खण्ड 50 के उपखण्ड (1) के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जो उसके स्तम्भ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है।

सारणी

क्रम सं०	वर्णन	शुल्क
(1)	(2)	(3)
रु० प्रति कि०ग्रा०		
1. सेलुलोसी मूल का स्टेपिल फाइबर और टो—		
(क) विस्कोस फाइबर	.	4.00
(ख) उच्च निष्पादन वाला विस्कोस फाइबर	.	4.00
(ग) उच्च लघिष्णुता वाला विस्कोस फाइबर	.	4.00
(घ) उच्च नम मापांक विस्कोस फाइबर	.	4.00
(ङ) पोलिमोडिक फाइबर	.	4.00
2. प्रसेलुलोसी मूल का स्टेपिल फाइबर और टो—		
(क) पोलिएस्टर फाइबर	.	45.00
(ख) एक्रिलिक फाइबर	.	30.00
(ग) अन्य	.	37.50

परन्तु एक्रिलिक फाइबर को उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट होगी जो सत्रह रुपये पचास पैसे प्रति किलोग्राम से अधिक है यदि ऐसा एक्रिलिक फाइबर भारत में उत्पादित एक्रिलो-नाइट्रिल से निर्मित किया गया है।

3. कृत्रिम फिलामेंट सूत जिसमें पूर्णतः सेलुलोसी व्युत्पन्न या पुनर्जीवित सेलुलोस या दोनों हों:—

(क) एसीटेट सूत

1	2	3
(i) 75 डेनियर से कम		15.56
(ii) 75 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 100 डेनियर से कम		11.69
(iii) 100 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 120 डेनियर से कम		8.69
(iv) 120 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 150 डेनियर से कम		6.00
(v) 150 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 350 डेनियर से कम		5.56
(vi) 350 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 1100 डेनियर से अनधिक		4.56
(vii) 1100 डेनियर से अधिक		3.19
(ख) अन्य		
(i) 75 डेनियर से कम		21.38
(ii) 75 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 100 डेनियर से कम		13.88
(iii) 100 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 120 डेनियर से कम		9.94
(iv) 120 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 150 डेनियर से कम		8.25
(v) 150 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 350 डेनियर से कम		7.06
(vi) 350 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 1100 डेनियर से अनधिक		4.75
(vii) 1100 डेनियर से अधिक		3.13

4. अन्य संश्लिष्ट सूत—

धूर्य

(क) कृत्रिम मेटेलिक सूत

परन्तु यह छूट केवल ऐसे कृत्रिम मेटेलिक सूत को लागू होगी जिसके विनिर्माण में ऐसे पोलिएस्टर फिल्म या मेटेलाइज्ड पालिएस्टर फिल्म का उपयोग किया गया है जिस पर, यथास्थिति, समुचित उत्पाद-शुल्क या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क का पहले ही संवाय कर दिया गया है।

स्पष्टीकरण—इस परन्तुक के प्रयोजन के लिए ऐसे फिल्म पर समुचित उत्पादशुल्क या उक्त धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क के बारे में यह जाना जाएगा कि उसका संवाय कर दिया गया है, यदि उसका क्रय बाजार से किया गया है।

(ख) पॉलीमाइड (नाईलॉन) सूत

(i) 35 डेनियर से कम	73.50
(ii) 35 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 80 डेनियर से कम	64.75
(iii) 80 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 110 डेनियर से कम	56.00
(iv) 110 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 150 डेनियर से कम	47.25

1	2	3
(v) 150 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 750 डेनियर से अनधिक		24.50
(vi) 750 डेनियर से अधिक		8.13
(ग) पोलिएस्टर सूत		
(i) 30 डेनियर से कम		96.25
(ii) 30 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 75 डेनियर से कम		87.50
(iii) 75 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 100 डेनियर से कम		78.75
(iv) 100 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 750 डेनियर से अनधिक		61.25
(v) 750 डेनियर से अधिक		18.75
(घ) अन्य—		
(i) 30 डेनियर से कम		70.00
(ii) 30 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 75 डेनियर से कम		61.25
(iii) 75 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 100 डेनियर से कम		43.75
(iv) 100 डेनियर और उससे अधिक किन्तु 750 डेनियर से अनधिक		35.00
(v) 750 डेनियर से अधिक		6.25

परन्तु विभक्त (स्प्लिट) सूत को उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट होगी यदि ऐसे विभक्त सूत का उत्पादन ऐसे “विभक्त सूत के लिए मातृ (मदर) सूत” से किया गया है जिस पर, यथास्थिति, समुचित उत्पाद-शुल्क या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन अतिरिक्त शुल्क का पहले ही संवाय कर दिया गया है।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए “विभक्त सूत के लिए मातृ सूत” के मामले में डेनियर (विन्तर डेनियर का) एकल मोनो फिलामेंट सूत, जिसमें मातृ सूत हो, का डेनियर होगा :

परन्तु यह और कि इस प्रकार उद्ग्रहणीय शुल्क की रकम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1), अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (टैक्सटाइल और टैक्सटाइल वस्तु) अधिनियम, 1978 (1978 का 40) और वित्त विधेयक, 1982 के खण्ड 50 के अधीन उद्ग्रहणीय शुल्क के बीच क्रमशः 100 : 15 : 10 के अनुपात में प्रभाजित किया जाएगा।

No. 73/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 132 (E):—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978) and sub-clause (4) of clause 50 of the Finance Bill, 1982, which clause has, by virtue of the declaration made in the said Bill under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931), the force of law, and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 28/75—Central Excises, dated the 1st March, 1975, and Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 171/80—Central Excises, dated the 1st November, 1980, the Central Government hereby exempts man-made fibres and yarns, other than textured, falling under Item No. 18 of the

First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and specified in column (2) of the Table hereto annexed, from so much of the duty of excise leviable thereon under the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), sub-section (1) section 3 of the Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978) and sub-clause (1) of clause 50 of the said Finance Bill, as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (3) thereof.

TABLE

Sl. No.	Description	Duty
(1)	(2)	(3) Rs. per Kg.
1.	Staple fibre and tow of cellulosic origin -	
	(a) viscose fibre	4.00
	(b) high performance viscose fibre	4.00
	(c) high tenacity viscose fibre	4.00
	(d) high wet modulus viscose fibre	4.00
	(e) polymeric fibre	4.00
2.	Staple fibre and tow of non-cellulosic origin	
	(a) polyester fibre	45.00
	(b) acrylic fibre	30.00
	(c) others	37.50
	Provided that acrylic fibre shall be exempted from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of rupees seventeen and paise fifty per kilogram if such acrylic fibre has been manufactured from acrylonitrile produced in India.	
3.	Man-made filament yarn, consisting entirely of cellulosic derivatives or regenerated cellulose or both—	
	(a) Acetate yarn	
	(i) below 75 deniers	15.56
	(ii) 75 deniers and above but below 100 deniers	11.69
	(iii) 100 deniers and above but below 120 deniers	8.69
	(iv) 120 deniers and above but below 150 deniers	6.00
	(v) 150 deniers and above but below 350 deniers	5.56
	(vi) 350 deniers and above but not above 1100 deniers	4.56
	(vii) above 1100 deniers	3.19
	(b) Others	
	(i) below 75 deniers	21.38
	(ii) 75 deniers and above but below 100 deniers	13.88
	(iii) 100 deniers and above but below 120 deniers	9.94
	(iv) 120 deniers and above but below 150 deniers	8.25
	(v) 150 deniers and above but below 350 deniers	7.06

(1)	(2)	(3)
	(vi) 350 deniers and above but not above 1100 deniers	4.75
	(vii) above 1100 deniers	3.13
4.	Other synthetic yarn—	
	(a) Man-made metallic yarn	Nil
	Provided that this exemption shall be applicable only to such man-made metallic yarn in the manufacture of which polyester film or metallised polyester film on which the appropriate duty of excise or, as the case may be, the additional duty leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), has already been paid is used.	
	Explanation.—For the purposes of this proviso, appropriate duty of excise or additional duty leviable under the said section 3 on such film, shall be deemed to have been paid if it has been purchased from the market.	
	(b) Polyamide (nylon) yarn—	
	(i) below 35 deniers	73.50
	(ii) 35 deniers and above but below 80 deniers	64.75
	(iii) 80 deniers and above but below 110 deniers	56.00
	(iv) 110 deniers and above but below 150 deniers	47.25
	(v) 150 deniers and above but not above 750 deniers	24.50
	(vi) above 750 deniers	8.13
	(c) Polyester yarn—	
	(i) below 30 deniers	96.25
	(ii) 30 deniers and above but below 75 deniers	87.50
	(iii) 75 deniers and above but below 100 deniers	78.75
	(iv) 100 deniers and above but not above 750 deniers	61.25
	(v) above 750 deniers	18.75
	(d) Others—	
	(i) below 30 deniers	70.00
	(ii) 30 deniers and above but below 75 deniers	61.25
	(iii) 75 deniers and above but below 100 deniers	43.75
	(iv) 100 deniers and above but not above 750 deniers	35.00
	(v) above 750 deniers	6.25

Provided that split yarn shall be exempt from the whole of the duty of excise leviable thereon, if such split yarn has been produced from 'mother yarn for split yarn' on which the appropriate duty of excise or, as the case may be, the additional duty leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), has already been paid.

Explanation.—For the purposes of this notification, in the case of 'mother yarn for split yarn', the denier shall be the denier of the single mono-filament yarn (of the lowest denierage) comprising the mother yarn ;

Provided further that the amount of duty so levied shall be apportioned in the ratio of 100 : 15 : 10 between the duty leviable under the Central Excises and Salt Act 1944 (1 of 1944), the Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Articles) Act, 1978 (40 of 1978) and clause 50 of the Finance Bill, 1982, respectively.

सं० 74/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकांति० 133 (अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 18 III(ii) और 18क (ii) के अन्तर्गत आने वाले क्रमशः सेलूलोसीक कता सूत और कपास के सूत को उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना छह रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक है :

परन्तु यह तब जब कि, यथास्थिति उक्त सेलूलोसीक कता सूत या कपास के सूत में कुल फाइबर अन्तर्ग्रन्थु के आधार पर परिकलित, असेलूलोसीक मूल के कृत्रिम फाइबर भार में एक बड़ा छह से अधिक नहीं है :

परन्तु यह और कि इस अधिसूचना में अन्तर्लिखित छूट 1 मार्च, 1983 को या उसके पश्चात् लागू नहीं होगी ।

No. 74/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 133(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts cellulosic spun yarn and cotton yarn, falling under Item Nos. 18 III(ii) and 18A(ii), respectively, of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of six rupees per kilogram :

Provided that the said cellulosic spun yarn or cotton yarn, as the case may be, does not contain more than one-sixth by weight of man-made fibres of non-cellulosic origin calculated on the total fibre content :

Provided further that the exemption contained in this notification shall not apply on or after the 1st day of March, 1983.

सं० 75/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकांति० 134 (अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 18 III(ii) और 18क(ii) के अन्तर्गत आने वाले क्रमशः सेलूलोसीक कता सूत और कपास के सूत को, उन पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जो नौ रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक है ।

No. 75/82 - CENTRAL EXCISES

G.S.R. 134(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts cellulosic spun yarn and cotton yarn, falling under Item Nos. 18 III(ii) and 18A(ii), respectively, of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of nine rupees per kilogram.

सं० 76/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकांति० 135 (अ) —केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 18 के अन्तर्गत आने वाले असेलूलोसीक कता सूत को जिसमें पालिग्रेस्टर फाइबर भार के आधार पर प्रधानता में है, उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना अठारह रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक है :

परन्तु इस अधिसूचना में अन्तर्लिखित छूट उक्त असेलूलोसीक के सूत को तब लागू नहीं होगी यदि उसमें—

- (i) पालिग्रेस्टर फाइबर 70 प्रतिशत या उससे अधिक है ; या
- (ii) सेलूलोसीक मूल के पालिग्रेस्टर कपास और कृत्रिम फाइबर से शिथिल फाइबर हैं ।

No. 76/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 135(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts non-cellulosic spun yarn in which polyester fibre predominates in weight, falling under Item No. 18F of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of eighteen rupees per kilogram :

Provided that the exemption contained in this notification shall not apply to the said non-cellulosic spun yarn, if it —

- (i) contains 70 per cent or more of polyester fibre, or
- (ii) contains fibres other than polyester, cotton and man-made, fibres of cellulosic origin.

सं० 77/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सांकांति० 136 (अ) —केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की अधिसूचना सं० 226/77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1977 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में,—

- (i) तीसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह और भी कि इस अधिसूचना की कोई बात सूती फैब्रिक के टुकड़ों और चिथड़ों को लागू नहीं होगी ।"

- (ii) स्पष्टीकरण 1 में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तर्स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

(घ) "टुकड़े" से अभिप्रेत है:—

- (i) विनिर्माण (जिसके अन्तर्गत प्रसंस्करण भी है) या पैक करने या नमूने लेने के प्रामाण्य अनुक्रम के दौरान उत्पन्न सूती फैब्रिक के वस्तुतः कटे टुकड़े (जिसके अन्तर्गत नीलियों के कटे टुकड़े नहीं हैं) जो, जहां फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहां 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक और जहां फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहां 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों;

- (ii) कटे-फटे सूती फैब्रिक (जिनके अन्तर्गत कटे-फटे तौलिया नहीं हैं) जो, जहाँ फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहाँ 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक, और जहाँ फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहाँ 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों ; और
- (iii) कटी-फटी धोतियों या साड़ियों से काटे गये कटे टुकड़े जो, जहाँ फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहाँ 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक, और जहाँ फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहाँ 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों ;

(क) "चिपड़े" से अभिप्रेत है,—

- (i) विनिर्माण (जिसके अन्तर्गत प्रसंस्करण भी है) या पैक करने या नमूने लेने के प्रसामान्य अनुक्रम के दौरान उत्पन्न सूती फैब्रिक के वस्तुतः कटे टुकड़े जो, जहाँ फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहाँ 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 45 सेंटीमीटर से कम, और जहाँ फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहाँ 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 65 सेंटीमीटर से कम लम्बे हों, और
- (ii) कटे-फटे या घटिया सूती फैब्रिक के कटे टुकड़े जो, जहाँ फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहाँ 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 45 सेंटीमीटर से कम, और जहाँ फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहाँ 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 65 सेंटीमीटर से कम लम्बे हों ।

No. 77/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 136(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.226/77, Central Excises, dated the 15th July, 1977, namely :—

In the said notification,—

- (i) after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—
"Provided also that nothing contained in this notification shall apply to fents and rags of cotton fabrics.";
- (ii) in **Explanation I**, after clause (c), the following clauses shall be inserted, namely :—

'(d) "fents" means—

- (i) *bonafide* cut-pieces of cotton fabrics (excluding cut-pieces of towels) of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres, where the width of the fabric is less than one metre, arising during the normal course of manufacturing (including processing) or packing or drawing samples;
- (ii) damage cotton fabrics (excluding damage towels) of length 45 centimetres or more but

not exceeding 90 centimetres, where the width of the fabrics is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres, where the width of the fabrics is less than one metre; and

- (iii) cut-pieces of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres, where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres, where the width of the fabric is less than one metre, cut from damaged dhoties or sarees;

(e) "rags" means—

- (i) *bonafide* cut-pieces of cotton fabrics of length more than 23 centimetres but less than 45 centimetres, where the width of the fabrics is one metre or more, and of length more than 23 centimetres but less than 65 centimetres, where the width of the fabrics is less than one metre, arising during the normal course of manufacturing (including processing) or packing or drawing samples; and
- (ii) cut-pieces of damaged or sub-standard cotton fabrics of length more than 23 centimetres but less than 45 centimetres, where the width of the fabrics is one metre or more, and of length more than 23 centimetres but less than 65 centimetres where the width of the fabrics is less than one metre.'

सं० 78/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 137(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 80, 69-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1969 और 110/75-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 30 अप्रैल, 1975 को अधिस्तन करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 22 का उप-मद (1) के अन्तर्गत आने वाले कृत्रिम फैब्रिक को उस पर उद्घाटनीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है ।

No. 78/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R.137(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) Nos. 80/69-Central Excises, dated 1st March, 1969 and 110/75, Central Excises, dated 30th April, 1975, the Central Government hereby exempts man-made fabrics, falling under sub-item (1) of Item No.22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon.

सं० 79/82 -केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा० का० नि० 138(अ).—केन्द्रीय सरकार, अनिश्चित उत्पाद शुल्क विधेय महत्व का माल अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के माध पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 179/72-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 जुलाई, 1972 को अधिस्तन करते हुए, इससे उपाबद्ध मावणी के सम्म (1)

में विनिर्दिष्ट वर्णन के कृत्रिम फैब्रिकों को जो केन्द्रीय उत्पादशुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की शर्त ग-22 की उपमद (1)(ख) के अन्तर्गत आते हैं, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उन पर उद्घाटनीय उतने अतिरिक्त उत्पादशुल्क से छूट देती है : जितना उसके स्तर (2) में का लब्ध्यासी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है।

सारणी

वर्णन	अतिरिक्त शुल्क की दर
(1)	(2)
कृत्रिम फैब्रिक जिनका मूल्य प्रति वर्ग मीटर,—	
(1) तीन रुपए से अधिक नहीं है	मूल्य का एक प्रतिशत।
(2) तीन रुपए से अधिक है किन्तु नौ रुपए से अधिक नहीं है।	3 पैसे प्रति वर्ग मीटर छन प्रति वर्ग मीटर फैब्रिक के मूल्य और तीन रुपए प्रति वर्ग मीटर के बीच के अन्तर की रकम का सात प्रतिशत।
(3) नौ रुपए से अधिक है किन्तु सत्रह रुपए से अधिक नहीं है।	45 पैसे प्रति वर्ग मीटर छन प्रति वर्ग मीटर फैब्रिक के मूल्य और नौ रुपए प्रति वर्ग मीटर के बीच के अन्तर की रकम का नौ प्रतिशत।
(4) सत्रह रुपए से अधिक है किन्तु बीस रुपए से अधिक नहीं है।	117 पैसे प्रति वर्ग मीटर छन प्रति वर्ग मीटर फैब्रिक के मूल्य और सत्रह रुपए प्रति वर्ग मीटर के बीच के अन्तर की रकम का सत्रह प्रतिशत।
(5) बीस रुपए से अधिक है।	मूल्य का साढ़े सात प्रतिशत।

परन्तु,—

- (1) ऐसे कृत्रिम फैब्रिकों का दशा में जिनका प्रसंस्करण शक्ति या वाष्प की सहायता के बिना चलाई जाने वाली, मशीनों की सहायता से किया जाता है, गारणी में विनिर्दिष्ट शुल्क की समुचित दर, ऐसी दर के खालीम प्रतिशत से कम कर दी जाएगी ;
- (2) ऐसे कृत्रिम फैब्रिकों को, जिनका प्रसंस्करण शक्ति या वाष्प की सहायता के बिना और मशीनों के प्रयोग के बिना किया जाता है, अतिरिक्त उत्पादशुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उन पर उद्घाटनीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त होगी ;
- (3) हथकरघों पर बने गए ऐसे कृत्रिम फैब्रिकों को, जिनका प्रसंस्करण हथकरघा विकास आधुनिक की सफाई पर भारत सरकार द्वारा उक्त निमित्त दोनों ही दशाओं में अनुमोदित राज्य सरकार हथकरघा नियम या कनिष्ठप्रदा हथकरघा सहायता सोसाइटी के स्थापित/अधीन किसी कारखाने द्वारा शक्ति का या वाष्प की सहायता से किया जाता है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम 1957 (1957 का 58) के अधीन उन पर उद्घाटनीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त होगी ; और

- (4) इस अधिसूचना की कोई बात कृत्रिम फैब्रिकों के टुकड़ों और चिपों को लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,—

- (1) "टुकड़े" से अभिप्रेत है,—

(क) विनिर्माण (जिसके अन्तर्गत प्रसंस्करण भी है) या पैक करने या नमूने लेने के प्रसामान्य अनुक्रम के दौरान उत्पन्न कृत्रिम फैब्रिक के वस्तुतः कटे-टुकड़े जो, जहाँ फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहाँ 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक और जहाँ फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहाँ 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों ; और

(ख) कटे-फटे कृत्रिम फैब्रिक जो, जहाँ फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो, वहाँ 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक और जहाँ फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहाँ 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों

- (2) "चिपड़े" से अभिप्रेत है,—

(क) विनिर्माण (जिसके अन्तर्गत प्रसंस्करण भी है) या पैक करने या नमूने लेने के प्रसामान्य अनुक्रम के दौरान उत्पन्न कृत्रिम फैब्रिक के वस्तुतः कटे-टुकड़े जो, जहाँ फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहाँ 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 45 सेंटीमीटर से कम, और जहाँ फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहाँ 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 65 सेंटीमीटर से कम लम्बे हों, और

(ख) कटे-फटे या घटिया कृत्रिम फैब्रिक के कटे-टुकड़े जो, जहाँ फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहाँ 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 45 सेंटीमीटर से कम, और जहाँ फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहाँ 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 65 सेंटीमीटर से कम लम्बे हों।

No. 79/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 138.(E)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No.179/72-Central Excises, dated the 24th July, 1972, the Central Government hereby exempts man-made fabrics of the description specified in column (1) of the Table hereto annexed and falling under sub-item (1)(b) of Item No.22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the additional duty of excise leviable thereon under the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (2) thereof.

THE TABLE

Description	Rate of additional duty
(1)	(2)
Man-made fabrics whose value per square metre—	
(i) does not exceed rupees three	one per cent. ad valorem.

- (ii) exceeds rupees three but does not exceed rupees nine. 3 paise per square metre plus 7% of the differential amount between the value of the fabric per square metre and rupees three per square metre.
- li) exceeds rupees nine but does not exceed rupees seventeen. 45 paise per square metre plus 9% of the differential amount between the value of the fabric per square metre and rupees nine per square metre.
- v) exceeds rupees seventeen but does not exceed rupees twenty. 117 paise per square metre plus 11% of the differential amount between the value of the fabric per square metre and rupees seventeen per square metre.
- y) exceeds rupees twenty seven and a half per cent. *ad valorem*.

provided that —

- (i) in the case of man-made fabrics processed with the aid of machines operated without the aid of power or steam, the appropriate rate of duty as specified in the Table shall be reduced by forty per cent. of such rate;
- (ii) man-made fabrics processed without the aid of power or steam and without the use of machines shall be exempt from the whole of the additional duty of excise leviable thereon under the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957);
- (iii) man-made fabrics, woven on handlooms, processed with the aid of power or steam by a factory owned by a State Government Handloom Development Corporation or an apex handloom co-operative society approved, in either case, in this behalf by Government of India on the recommendation of the Handloom Development Commissioner, shall be exempt from the whole of the additional duty of excise leviable thereon under the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957); and
- (iv) nothing contained in this notification shall apply to tents and rags of man-made fabrics.

Explanation.—For the purposes of this notification,—

(i) “fents” means

- (a) **bonafide** cut pieces of man-made fabrics of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width of the fabric is less than one metre, arising during the normal course of manufacturing (including processing) or packing or drawing samples; and
- (b) damage man-made fabrics of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width of the fabric is less than one metre;

(ii) “rags” means—

- (a) **bonafide** cut pieces of man-made fabrics of length more than 23 centimetres but less than 45 centimetres where the width of the fabrics is 1 metre or more, and of length more than 23 centimetres but less than 45 centimetres where the width of the fabric is less than 1 metre, arising during the normal course of manufacturing (including processing) or packing or drawing samples; and

(b) cut pieces of damaged or substandard man-made fabrics of length more than 23 centimetres but less than 45 centimetres where the width of the fabric is one metre or more and of length more than 23 centimetres but less than 65 centimetres where the width of the fabric is less than one metre.

सं० 80/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 139 (अ) —केन्द्रीय सरकार, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1914 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 61/73-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1973 को अधिकांश करने हुए, इससे उपाबद्ध मारणी के स्लैब (1) में विनिर्दिष्ट वर्णन के कृत्रिम फैब्रिक के टुकड़ों और चिथड़ों को, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1914 (1914 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 22 की उपमद (i) (ख) के अन्तर्गत आते हैं, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय उम्मेद अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उसके स्लैब (2) में की नत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है।

सारणी

वर्णन	अतिरिक्त शुल्क की दर
(1)	(2)
कृत्रिम फैब्रिक से उत्पन्न टुकड़े और चिथड़े जहाँ ऐसे कृत्रिम फैब्रिक का मूल्य प्रति वर्ग मीटर—	
(i) तीन रुपए से अधिक नहीं है	मूल्य का एक प्रतिशत।
(ii) तीन रुपए से अधिक है किन्तु छह रुपए से अधिक नहीं है	मूल्य का तीन प्रतिशत।
(iii) छह रुपए से अधिक है किन्तु नौ रुपए से अधिक नहीं है	मूल्य का चार प्रतिशत।
(iv) नौ रुपए से अधिक है किन्तु बारह रुपए से अधिक नहीं है	मूल्य का पांच प्रतिशत।
(v) बारह रुपए से अधिक है किन्तु सोलह रुपए से अधिक नहीं है	मूल्य का छह प्रतिशत।
(vi) सोलह रुपए से अधिक है किन्तु बीस रुपए से अधिक नहीं है	मूल्य का सात प्रतिशत।
(vii) बीस रुपए से अधिक है	मूल्य का साठे सात प्रतिशत।

परन्तु,—

- (i) ऐसे कृत्रिम फैब्रिक से उत्पन्न टुकड़ों और चिथड़ों की दशा में जिसका प्रसंस्करण शक्ति या बाण की सहायता के बिना चलाई जाने वाली मशीनों की सहायता से किया जाता है, सारणी में विनिर्दिष्ट शुल्क की समुचित दर, ऐसी दर के चालीस प्रतिशत से कम कर दी जाएगी।

- (ii) ऐसे कृत्रिम फैब्रिक से उत्पन्न टुकड़ों और चिथड़ों को जिसका प्रसंस्करण शक्ति या वाष्प की सहायता के बिना और मशीनों के प्रयोग के बिना किया जाता है, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त होगी; और
- (iii) हथकरघों पर बने गए ऐसे कृत्रिम फैब्रिक के टुकड़ों और चिथड़ों को, जिसका प्रसंस्करण हथकरघा विकास प्रायुक्त की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा हम निमित्त धोनों ही दशाओं में अनुमोदित राज्य सरकार हथकरघा निगम या व्यक्तिप्राप्त हथकरघा सहकारी सोसाइटी के स्वामित्वाधीन किसी कारखाने द्वारा शक्ति या वाष्प की सहायता से किया जाता है, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट प्राप्त होगी।

स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,—

- (i) “टुकड़े” से अभिप्रेत है—

(क) विनिर्माण (जिसके अन्तर्गत प्रसंस्करण भी है) या पैक करने या नमूने लेने के प्रसामान्य अनुक्रम के दौरान उत्पन्न कृत्रिम फैब्रिक के वस्तुतः कटे टुकड़े जो, जहाँ फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहाँ 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक जहाँ या फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहाँ 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों; और

(ख) कटे-कटे कृत्रिम फैब्रिक को, जहाँ फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो, वहाँ 45 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 90 सेंटीमीटर से अनधिक, और जहाँ फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहाँ 65 सेंटीमीटर या उससे अधिक किन्तु 135 सेंटीमीटर से अनधिक लम्बे हों;

- (ii) “चिथड़े” से अभिप्रेत है,—

(क) विनिर्माण (जिसके अन्तर्गत प्रसंस्करण भी है) या पैक करने या नमूने लेने के प्रसामान्य अनुक्रम के दौरान उत्पन्न कृत्रिम फैब्रिक के वस्तुतः कटे टुकड़े जो, जहाँ फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हों वहाँ 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 45 सेंटीमीटर से कम, और जहाँ फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहाँ 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 65 सेंटीमीटर से कम लम्बे हों; और

(ख) कटे-कटे या छटिया कृत्रिम फैब्रिक के कटे टुकड़े जो, जहाँ फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक हो वहाँ 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 35 सेंटीमीटर से कम और जहाँ फैब्रिक की चौड़ाई एक मीटर से कम हो वहाँ 23 सेंटीमीटर से अधिक किन्तु 65 सेंटीमीटर से कम लम्बे हों।

जितेन्द्र बल्ला, अवर सचिव

No. 80/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 139(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) 1378 GI/81—5

No. 61/73-Central Excises, dated 1st March, 1973, the Central Government hereby exempts fents and rags of man-made fabrics of the description specified in column (1) of the Table hereto annexed and falling under sub-item (a) (b) of Item No. 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from so much of the additional duty of excise leviable thereon under the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), as is in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (2) thereof.

TABLE

Description	Rate of additional duty
(1)	(2)
Fents and rags arising out of man-made fabrics where the value of such man-made fabrics per square metre—	
(i) does not exceed rupees three	one per cent. <i>ad valorem.</i>
(ii) exceeds rupees three but does not exceed rupees six.	three per cent. <i>ad valorem.</i>
(iii) exceeds rupees six but does not exceed rupees nine	four per cent. <i>ad valorem.</i>
(iv) exceeds rupees nine but does not exceed rupees twelve.	five per cent. <i>ad valorem.</i>
(v) exceeds rupees twelve but does not exceed rupees sixteen	six per cent. <i>ad valorem.</i>
(vi) exceeds rupees sixteen but does not exceed rupees twenty	seven per cent. <i>ad valorem.</i>
(vii) exceeds rupees twenty	seven and a half per cent. <i>ad valorem.</i>

Provided that—

- (i) in the case of fents and rags arising out of man-made fabrics processed with the aid of machines operated without the aid of power or steam, the appropriate rate of duty as specified in the Table shall be reduced by forty per cent. of such rate;
- (ii) fents and rags arising out of man-made fabrics processed without the aid of power or steam and without the use of machines shall be exempt from the whole of the additional duty of excise leviable thereon under the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957); and
- (iii) fents and rags arising out of processing of man-made fabrics, woven on handlooms, processed with the aid of power or steam by a factory owned by a State Government Handloom Development Corporation or an apex handloom co-operative society approved, in either case in this behalf by Government of India on the recommendation of the Handloom Development Commissioner shall be exempt from the whole of the additional duty of excise leviable thereon under the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957).

Explanation.—For the purposes of this notification,—

- (i) “fents” means—

(a) bonafide cut pieces of man-made fabrics of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centi-

metres where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width of the fabric is less than one metre, arising during the normal course of manufacturing (including processing) or packing or drawing samples; and

- (b) damaged man-made fabrics of length 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width of the fabric is one metre or more, and of length 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width of the fabric is less than one metre;

li) "rags" means—

- (a) bona fide cut pieces of man-made fabrics of length more than 23 centimetres but less than 45 centimetres where the width of the fabric is 1 metre or more, and of length more than 23 centimetres but less than 65 centimetres where the width of the fabric is less than 1 metre, arising during the normal course of manufacturing (including processing) or packing or drawing samples; and

- (b) cut pieces of damaged or substandard man-made fabrics of length more than 23 centimetres but less than 45 centimetres where the width of the fabric is one metre or more and of length more than 23 centimetres but less than 65 centimetres where the width of the fabric is less than one metre.

J. K. BATRA, Under Secy.

सं० 81/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० वि० 140(घ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट, भारत सरकार के, यथास्थिति, राजस्व और बैंकिंग विभाग की या वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाएं उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधित की जाएंगी।

सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना संख्या और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	101/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 3 जून, 1977	उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (3) में— (i) क्रम संख्या 1 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर "एक-सौ-सहस्र रुपए प्रति मीटरी टन।" प्रविष्टि रखी जाएगी; (ii) क्रम संख्या 2 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर "एक-सौ चौंसठ रुपए प्रति मीटरी टन।" प्रविष्टि रखी जाएगी; (iii) क्रम संख्या 3 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर "एक-सौ पैंतीस रुपये प्रति मीटरी टन" प्रविष्टि रखी जाएगी।

(1)	(2)	(3)
2.	194/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 3 मई, 1979	उक्त अधिसूचना में "बत्तीस रुपए पचास पैसे प्रति मीटरी टन" शब्दों के स्थान पर "एक-सौ रुपए प्रति मीटरी टन" शब्द रखे जाएंगे।

No. 81/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 140 (E)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that the notifications of the Government of India, in the Department of Revenue and Banking, or in the Ministry of Finance (Department of Revenue as the case may be, specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

THE TABLE

S. No.	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	101/77-Central Excises, dated the 3rd June, 1977.	In the Table annexed to the said notification, for the entry in column (3) against— (i) Sl.No.1, the entry "Rupees one hundred sixty-seven per metric tonne." shall be substituted; (ii) Sl.No.2, the entry "Rupees one hundred sixty-four per metric tonne." shall be substituted; (iii) Sl.No.3, the entry "Rupees one hundred thirty-five per metric tonne." shall be substituted.
2.	194/79-Central Excises, dated the 30th May, 1979.	In the said notification, for the words "rupees thirty-two and paise fifty per metric tonne" the words "rupees one hundred per metric tonne" shall be substituted.

सं० 82/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० वि० 141(घ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 23क की उप-मद (1) के अंतर्गत आने वाले और इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के विषिट कांच को उस पर उद्ग्रहणीय उत्तने उत्पाद-शुल्क से, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में वर्णित दर पर उद्ग्रहणीय शुल्क से अधिक है, छूट देती है।

सारणी

क्र० सं०	वर्णन	शुल्क की दर
1)	(2)	(3)
	विषिट कांच, अनमिश्रित और अन-स्तरित	मूल्य का दस प्रतिशत धन दो रुपए तीस पैसे प्रति मीलीमीटर मोटाई प्रति वर्ग मीटर।

1	2	3
2. बिपिट कांच, आभिन किंतु अनस्त-रित	मूल्य का दस प्रतिशत धन दो रुपए पचपन पैसे प्रति मिलीमीटर मोटाई प्रति वर्ग मीटर ।	
8. बिपिट कांच, अनआभिन किंतु स्त-रित	मूल्य का दस प्रतिशत धन तीन रुपए चालीस पैसे प्रति मिली-मीटर मोटाई प्रति वर्ग मीटर ।	
4. बिपिट कांच, आभिन और स्तरित	मूल्य का दस प्रतिशत धन तीन रुपए अस्सी पैसे प्रति मिली-मीटर मोटाई प्रति वर्ग मीटर ।	

No. 82/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R.141(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts flat glass, falling under sub-item (1) of Item No.23A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed from so much of the duty of excise leviable thereon as is in excess of the duty leviable at the rates specified in the corresponding entries in column (3) of the said Table.

THE TABLE

S.No.	Description	Rate of duty
1.	Flat glass, not tinted and laminated.	Ten per cent. <i>ad valorem</i> plus two rupees and thirty paise per millimetre thickness per square metre.
2.	Flat glass, tinted but not laminated.	Ten per cent. <i>ad valorem</i> plus two rupees and fifty-five paise per millimetre thickness per square metre.
3.	Flat glass, not tinted but laminated.	Ten per cent. <i>ad valorem</i> plus three rupees and forty paise per millimetre thickness per square metre.
4.	Flat glass, tinted and laminated.	Ten per cent. <i>ad valorem</i> plus three rupees and eighty paise per millimetre thickness per square metre.

सं 83/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां. कां. निं. 142(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मध्य सं. 23क की उप-मध्य (2) के अंतर्गत आने वाले प्रयोगशाला के कांच के सामान को उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है ।

आर० के० चक्रवर्ती, उप सचिव

NO. 83/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 142(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts laboratory glassware, falling under sub-item (2) of Item No.23A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon.

R. K. CHAKRABARTI, Dy. Secy.

सं 84/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां. कां. निं. 143(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, इसमें उपाखण्ड सारणी के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट वर्णन के एल्युमिनियम को, जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मध्य सं. 27 की उस उपमध्य, जो उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट है, के अन्तर्गत आता है और जिसका विनिर्माण सप्त एल्युमिनियम धातु से किसी प्रारम्भिक उत्पादक द्वारा किया जाता है तथा जिसकी एल्युमिनियम (नियंत्रण) आदेश, 1970 के अधीन जारी की गई अधि-सूचनाओं के साथ पठित तत्समय यथा प्रवृत्त उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा विनियम और प्रवाय के लिए अपेक्षा की जाती है, उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जितना उक्त सारणी के स्तम्भ (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क से अधिक है ।

सारणी

क्रम सं०	उपमध्य	वर्णन	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1. (क) (i)	सिल्लियां जो भारतीय मानक संस्था के विनिर्देश भा० मा० : 4026-1969 के अनुरूप हों ।	तीन हजार पचासी रुपए प्रति मीटरी टन ।	
2. (क) (i)	बिलेट जो भारतीय मानक संस्था के विनिर्देश भा० मा० : 4026—1969 के अनुरूप हों ।	तीन हजार एक सौ पच्चीस रुपए प्रति मीटरी टन ।	
3. (क) (ii)	तार की शलाकाएं जो भारतीय मानक संस्था के विनिर्देश भा० मा० : 4026—1969 के अनुरूप हों	तीन हजार दो सौ अस्सी रुपए प्रति मीटरी टन ।	
4. (क) (ii)	तार की छड़ें जो भारतीय मानक संस्था के विनिर्देश भा० मा० : 5484-1969 के अनुरूप हों ।	तीन हजार तीन सौ तीस रुपए प्रति मीटरी टन ।	

स्पष्टीकरण:—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, "प्रारम्भिक उत्पादक" अभिव्यक्ति से उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के अधीन अनुज्ञाप या रजिस्ट्रीकृत ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो वाक्साइट या एल्यूमिना से एल्युमिनियम का उत्पादन करता है ।

No. 84/82-CENTRAL EXCISES

G.S.(R). 143E.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts aluminium of the description specified in column (3) of the Table hereto annexed, falling under the sub-items, specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, of Item No.27 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), and manufactured by any primary producer from Hot aluminium metal, and required by the Central Government to be sold or supplied in terms of the provisions contained in the Aluminium (Control) Order, 1970 as in force for the time being read with the notifications issued thereunder, from so much of the duty of excise leviable thereon

as in excess of the duty specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table.

TABLE

S. No.	Sub-item	Description	Rate of duty
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	(a)(i)	Ingot conforming to the specifications in IS : 4026—1969 of the Indian Standards Institution.	Rupees three thousand and eighty-five per metric tonne.
2.	(a)(i)	Billets conforming to the specifications in IS : 4026-1969 of the Indian Standards Institution.	Rupees three thousands one hundred and twenty-five per metric tonne.
3.	(a)(ii)	Wirebars conforming to the specifications in IS : 4026-1969 of the Indian Standards Institution.	Rupees three thousand two hundred and eighty per metric tonne.
4.	(a)(ii)	Wierods conforming to the specifications in IS : 5484-1969 of the Indian Standards Institution.	Rupees three thousand three hundred and thirty per metric tonne.

Explanation.—For the purpose of this notification, the expression 'primary producer' means any person licensed or registered under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) who produces aluminium from bauxite or alumina.

सं० 85/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 144(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 192/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 3 दिसम्बर, 1981 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, अंत में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु इस अधिसूचना में अन्तर्लिखित कोई बात ऐसे एलुमिनियम को लागू नहीं होगी जिसे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 84/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982 लागू होती है।”

No. 85/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 144-E.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 192/81-Central Excises, dated the 3rd December, 1981, namely :—

In the said notification, the following proviso shall be added at the end, namely :—

“Provided that nothing contained in this notification shall apply to aluminium to which the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 84/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982, applies.”

सं० 86/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 145 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग

करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 193/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 3 दिसम्बर, 1981 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—
उक्त अधिसूचना में,—

(i) सारणी में, क्रम सं० 4 के सामने स्तम्भ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

“दो सौ पैंतीस रुपए प्रति मीटरी टन” ;

(ii) पहले परन्तुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह और कि इस अधिसूचना की कोई बात ऐसे एलुमिनियम को लागू नहीं होगी जिसकी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 84/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1982 लागू होती है।”

जिनेन्द्र बत्रा, अवर सचिव

No. 86/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 145-E.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 193/81-Central Excises, dated the 3rd December, 1981, namely :—

In the said notification,—

(i) in the Table, against S.No. 4, in column (4), for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—
“Rupees two hundred and thirty-five per metric tonne”;

(ii) after the first proviso and before the Explanation, the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided further that nothing contained in this notification shall apply to aluminium to which the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 84/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982, applies.

J. K. Batra, Under Secy.

सं० 87/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 146 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 29क की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाले पानी के कूलरों को उन पर उदग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

NO. 87/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 146-E.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts water coolers, falling under sub-item (1) of Item No. 29A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon.

सं० 88/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 147 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 की नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 30 के अन्तर्गत आने वाली विद्युत मोटरों को, जिनका उपयोग कारखाने में के भीतर उक्त मद

के अंतर्गत आने वाले विद्युत मोटरों के और विनिर्माण में किया जाता है उन पर उद्योगीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

NO. 88/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 147(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts electric motors, falling under Item No. 30 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), which are used within the factory for further manufacture of electric motors, falling under the said Item, from the whole of the duty of excise leviable thereon.

सं० 88/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 148(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 96 मम के अनुसरण में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 68/79-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979 को विखण्डित करती है।

NO. 89/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 148E.—In pursuance of rule 96YY of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 68/79-Central Excises, dated the 1st March, 1979.

सं० 90/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 149(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 33B के अधीन आने वाले 10 एम डब्ल्यू जी से पहले तंगे बलूनियम के तारों को, उन पर उद्योगीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देती है।

NO. 90/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 149(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts bare aluminium wires finer than 10 SWG, falling under Item No. 33B of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon.

सं० 91/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 150(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 33B के अंतर्गत आने वाले ब्रैल टाइपराइटर्स को उन पर उद्योगीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

NO. 91/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 150(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts braille typewriters, falling under Item No. 33D of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon.

सं० 92/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 151(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 34-की उपमद सं० I(1) और मद सं० 68 के अंतर्गत आने वाले क्रमशः मोटरयानों और अन्य यानों, को जो विशेष रूप से विकसितों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए डिजाइन

किए गए हैं, उन पर उद्योगीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

NO. 92/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 151(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts motor vehicles and other vehicles, falling under sub-item I(1) of Item No. 34 and Item No. 68, respectively, of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), specially designed for use by the handicapped, from the whole of the duty or excise leviable thereon,

सं० 93/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 152(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप नियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 71/89-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979 को अधिकांश करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 34 की उपमद (1) के अंतर्गत आने वाले 100 घन सेंटीमीटर से अधिक इंजन क्षमता के दो पहिए वाले मोटरयानों को, उन पर उद्योगीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जो मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक है।

NO. 93/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 152(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 71/79-Central Excises, dated the 1st March, 1979, the Central Government hereby exempts two-wheeled motor vehicles, falling under sub-item I(1) of Item No. 34 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), of engine capacity not exceeding 100 cubic centimetres from so much of the duty of excise leviable thereon as in excess of ten per cent *ad valorem*.

सं० 94/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 153(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची में की मद सं० 34 की उपमद 1(2)(ii) के अंतर्गत आने वाले मोटरयानों को उन पर उद्योगीय उतने उत्पाद-शुल्क से छूट देती है जो उसके मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक हो।

NO. 94/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 153(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts motor vehicles, falling under sub-item I(2) (ii) of Item No. 34 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon as in excess of twenty per cent *ad valorem*.

सं० 95/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 154(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 197/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 23 जून, 1977 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में और तत्समय प्रवृत्त भारत सरकार के वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 101, 71 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971 में विनिर्दिष्ट" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों का लोप किया जाएगा।

वी० लक्ष्मी कुमारन, अवर सचिव

No. 95/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 154(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Department of Revenue and Banking, No. 197/77-Central Excises, dated the 23rd June, 1977, namely:—

In the said notification, the words, brackets, figures and letters "and specified in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 101/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971, for the time being in force" shall be omitted.

V. LAKSHMI KUMARAN, Under Secy.

संख्या 96/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 155(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय-उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निवेश देती है कि भारत सरकार के, यथास्थिति, राजस्व और बैंकिंग विभाग या वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचनाओं का जो इससे उपाखण्ड सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट हैं, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थायी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से और संशोधन किया जाएगा।

सारणी

क्रम संख्या अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
(1)	(2)
(3)	
1. 158/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977	उक्त अधिसूचना के दूसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— “परन्तु यह और भी कि शुल्क को निम्नतर करें जो पहले परन्तुक में विनिर्दिष्ट हैं, लागू नहीं होंगी, यदि ऐसे विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक कारखानों से घरेलू उपभोग के लिए पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पाद-शुल्क माल की निकासी का कुल मूल्य दो करोड़ रुपये से अधिक हो गया हो।”।
2. 160/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977	उक्त अधिसूचना के तीसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— “परन्तु यह और भी कि इस अधिसूचना के पहले परन्तुक की कोई बात लागू नहीं होगी यदि,—

(1)

(2)

(3)

(1) किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक औद्योगिक एककों से, या

(2) एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी औद्योगिक एकक से,

घरेलू उपभोग के लिए सभी उत्पाद-शुल्क माल की निकासी का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान दो करोड़ रुपये से अधिक हो गया हो।”।

3. 38/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उक्त अधिसूचना के पैरा 1 के तीसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु यह और भी कि इस अधिसूचना की कोई बात लागू नहीं होगी यदि:—

(1) किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक औद्योगिक एककों से, या

(2) एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी औद्योगिक एकक से, घरेलू उपभोग के लिए सभी उत्पाद-शुल्क माल की निकासी का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान दो करोड़ रुपये से अधिक हो गया हो।”।

4. 70/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 25 मार्च, 1981

उक्त अधिसूचना के पैरा 1 के परन्तुकों के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले, निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु यह और भी कि इस अधिसूचना की कोई बात लागू नहीं होगी यदि:—

(1) किसी विनिर्माता द्वारा या उसकी ओर से एक या अधिक औद्योगिक एककों से, या

(2) एक या अधिक विनिर्माताओं द्वारा या उनकी ओर से किसी औद्योगिक एकक से,

घरेलू उपभोग के लिए सभी उत्पाद-शुल्क माल

(1)	(2)	(3)
		की निकासी का कुल मूल्य पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान दो करोड़ रुपये से अधिक हो गया हो।”

उप सचिव
घार० के० चक्रवर्ती,

No. 96/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 155E.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that the notifications of the Government of India, in the Department of Revenue and Banking, or in the Ministry of Finance (Department of Revenue), as the case may be, specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be further amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

THE TABLE

S. Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)
1. 158/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977	In the said notification, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely :— “Provided also that the lower rates of duty as specified in the first proviso shall not apply if the aggregate value of clearances of all excisable goods, for home consumption by or on behalf of such manufacturer from one or more factories during the preceding financial year had exceeded rupees two crores”.
2. 160/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977	In the said notification, after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely :— “Provided also that nothing contained in the first proviso to this notification shall apply if the aggregate value of clearances of all excisable goods for home consumption,— (i) by or on behalf of a manufacturer, from one or more industrial units, or (ii) from any industrial unit, by or on behalf of one or more manufacturers, had exceeded rupees two crores during the preceding financial year”.
3. 38/81-Central Excises, dated the 1st March, 1981	In the said notification, in paragraph 1, after the third

(1)	(2)	(3)
		proviso, the following proviso shall be inserted, namely :— “Provided also that nothing contained in this notification shall apply if the aggregate value of clearances of all excisable goods for home consumption,— (i) by or on behalf of a manufacturer, from one or more industrial units, or (ii) from any industrial unit, by or on behalf of one or more manufacturers, had exceeded rupees two crores during the preceding financial year.”

4. 70/81-Central Excises, dated the 25th March, 1981

In the said notification, in paragraph 1, after the provisos and before the Explanation, the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided also that nothing contained in this notification shall apply if the aggregate value of clearances of all excisable goods for home consumption,—

(i) by or on behalf of a manufacturer, from one or more industrial units, or

(ii) from any industrial unit, by or on behalf of one or more manufacturers,

had exceeded rupees two crores during the preceding financial year.”

R.K. CHAKRABARTI, Dy. Secy.

सं० 97/82 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सं० का० वि० 156(घ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निवेश देती है कि इससे उपाय सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) को प्रत्येक अधिसूचनाएं उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधित की जाएगी।

सारणी

क्रम अधिसूचना सं० और तारीख सं०	संशोधन
(1)	(2)
1. 40/81 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1981	उक्त अधिसूचना के परन्तुक के खण्ड (ii) के पश्चात् निम्न-लिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(3) ऐसी दिशसलाईयो के मामले में जो ऐसे बक्सों में पैक की गई हैं जिनके

(1)	(2)	(3)
		केवल शास्त्र स्लाइड कार्डों बॉर्डों से बने हैं, छूट की रकम प्रति गुप्त बक्से 36 पैसे बढ़ा दी जाएगी” ;
2. 137/81—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 2 जुलाई, 1981	उक्त अधिसूचना से उपायय सारणी में क्रम सं० 1 के सामने स्तम्भ (3) में “5.50” शकों के स्थान पर “5.14” शक रखे जाएंगे ;	
3. 22/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 23 फरवरी, 1982	उक्त अधिसूचना में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण के पूर्व निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— “परन्तु यह भी कि इस अधिसूचना में अन्तर्निष्ठ छूट उक्त विद्या-सलाहों को जहाँ लागू नहीं होगी वहाँ विनिर्दिष्ट किसी अन्य विनिर्दिष्टता के ऐसे वेबिल का उपयोग करता है जो समुचित अधिकारी द्वारा बक्से में पैक की गई ऐसी दियामलाहों के लिए अनुमोदित किया गया है जिस पर इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट शुल्क की दर से उच्चतर शुल्क की दर लगती है।	

जितेन्द्र अत्रा, अवर सचिव

NO. 97/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 156(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

THE TABLE

S. No.	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	40/81-Central Excises, dated the 1st March, 1981.	In the said notification in the proviso, after clause (ii), the following clause shall be inserted, namely:— “(iii) in the case of matches packed in boxes in which the outer slide alone is made of card board, the amount of exemption shall be increased by 36 paise per gross boxes”;
2.	137/81-Central Excises, dated the 2nd July, 1981.	In the Table annexed to the said notification, against S. No. 1, in column (3), for

(1)	(2)	(3)
		the figures “5.50”, the figures “5.14” shall be substituted;
3. 22/82-Central Excises, dated the 23rd February, 82.		In the said notification after the second proviso and before the Explanation, the following proviso shall be inserted, namely:— “Provided also that the exemption contained in this notification shall not apply to the said matches where a manufacturer uses any other manufacturer's label which is approved by the proper officer for matches packed in boxes attracting a higher rate of duty than the rate of duty specified in this notification.”

J. K. BATRA, Under Secretary

सं० 98/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का०नि० 157(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 44 के अन्तर्गत आने वाली एकविधसीय प्रलाभ टेबुल घड़ियों को, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

No. 98/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 157(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts one-day alarm time-pieces, falling under Item No. 44 of the First schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon.

सं० 99/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का०नि० 158(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 310/77—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 नवम्बर, 1977 को अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 45 के अन्तर्गत आने वाले वेबिल के पुर्जों को, यदि वेबिल के ऐसे पुर्जों का उपयोग उत्पादन के कारखाने में वेबिलों के विनिर्माण में घटक पुर्जों के रूप में किया जाता है, उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

No. 99/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 158(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 310/77-Central Excises, dated the 1st November, 1977, the Central Government hereby exempts parts of weigh-bridges, falling under Item No. 45 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon, if such parts of weigh-bridges are used in the factory of production as component parts in the manufacture of weigh-bridges.

सं० 100/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 159(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 55 के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न प्लास्कों और अन्य निर्वात पात्रों तथा उनके पुर्जों को उन पर उद्घटनीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देने है।

No. 100/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 159(F).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts vacuum flasks and other vacuum vessels and parts thereof, falling under item No. 55 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon.

सं० 101/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 160(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और समाविमान) की अधिनियुक्ता सं० 110/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, 112/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, 113/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1971 को विखण्डित करना है।

व० लक्ष्मी कुमारन, अवसर सचिव

No. 101/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 160(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby rescinds the notifications of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), Nos. 110/71-Central Excises, 112/71-Central Excises and 113/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971.

V. LAKSHMI KUMARAN, Under Secy.

सं० 102/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 161(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 59 के अन्तर्गत आने वाली रिकार्ड की गई वस्तुओं को, उत्पन्न उद्घटनीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

परन्तु यह तब जब कि ऐसी वस्तुएं—

- (1) उक्त मद के अन्तर्गत आने वाली वस्तु से बतई जाती हैं, और
- (2) विक्रय या विपणन के संवर्धन के लिए आशयित नहीं है।

आर० के० चक्रवर्ती, उप सचिव

No. 102/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 161(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts recorded articles, falling under Item No. 59 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon:

Provided that such articles

- (i) are made from any article, falling under the said Item, and
- (ii) are not intended for sale or the promotion of sale.

R. K. CHAKRABARTI, Deputy Secy

1378 GI/81- 6

सा० का० नि० 161(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 59 के अन्तर्गत आने वाली रिकार्ड की गई वस्तुओं को, उत्पन्न उद्घटनीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

NO. 103/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 162(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts belateds from the whole of the duty of excise leviable under the 113/71-Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

सं० 104/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 165(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और समाविमान) की अधिनियुक्ता सं० 65/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 मई, 1975 को अधिव्यवस्थित करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाले और इनके आयातक अनुसूची से विनिर्दिष्ट वर्णन के मालों को उन पर उद्घटनीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देता है।

सूचिका

1 सूची प्रकार के खाद्य उत्पाद और काष्ठ, पत्तों, पत्तियों, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित हैं —

- (1) साग और साग उत्पाद
- (2) ऐरी उत्पाद
- (3) फल और सब्जी उत्पाद
- (4) गन्धनी और भण्डारी खाद्य
- (5) वेकरी उत्पाद; और
- (6) अनाज मिल उत्पाद;

2 आरेखण और गणितीय उपकरण;

3 अभ्यास पुस्तिकाएं।

4 लेखन ब्लेड और स्पेल वर्णन।

5 पैमिल और रबड़ (इरेजर)

6 पैन जिनके अन्तर्गत बाल-पाउडर पैन और उनके निर्यात हैं।

7 चण्डे और चण्डे के घेन

8 खेल सामान

9 हस्तशिल्प।

10 पशु-खाद्य जिनके अन्तर्गत यागिक पशु-खाद्य सामान हैं।

11 कम्पास खाद्य।

12 हस्त-युग्म।

13 कृषि डिस्क

14 कृषि यंत्रों और उनके भागों, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित सामान शामिल हैं —

(1) अक्ष-नाभिका युक्त यंत्रों के भाग, जिनके अन्तर्गत हैं —

(2) ऐसे यंत्रों के टुकड़े, भाग या भाग जिनके अन्तर्गत हैं —
 (a) सेटिंग यंत्र, जिनके अन्तर्गत हैं —
 (i) यंत्रों के भाग, जिनके अन्तर्गत हैं —
 (ii) यंत्रों के भाग, जिनके अन्तर्गत हैं —

15 वासित बुना (कारम)।

16. कत्था (कैटेचु) ।
17. विबुथि (थिरुनेरु) ।
18. पिसे मसाले (मासालेस) और मिश्र मसाले ।
19. संतलित अन्ध्र और अभ्रि उत्पाद ।
20. कीटनाशी, पीनकनाशी, खरपतवारनाशी, कवकनाशी
21. सभी औषधी, औषधी, वैद्यकीय और औषध मध्यक जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं ।
22. गर्भनिरोधक ।
23. खाद विपाट (खाद स्फुट) ।
24. मृदा उद्योग के सभी उत्पाद जिनके अन्तर्गत समाचारपत्र और मुद्रित नियतकालिक पत्रिकाएं हैं ।
25. वैद्यसहायक उद्योग में उपयोग के लिए उत्कीर्ण लाभ बेलन और मिलेण्डर ।
26. सिलाई मशीनें और उनके पुर्जे ।
27. साइकिलें और उनके पुर्जे ।
28. इलेमल भाण्ड ।
29. 10 लीटर से अधिक क्षमता वाले जल फिल्टर ।
30. मोमयंत्रियां ।
31. रंग वृण
32. चिकलाओं के लिए कुत्रिम अंग और पुनर्वासि सहाय यन्त्र ।
33. गायरसामी जलयान ।
34. लाख ।

परन्तु इस अनुसूची में विनिर्दिष्ट खाद्य उत्पादों और खाद्य निमित्तियों के अन्तर्गत प्रविष्ट मिष्ठान, टाकिया, कैरामेल, कैन्डी, वृक्ष फल (जिनके अन्तर्गत बादाम हैं) और मिठास कारकों से लेपित फल गिरियां ।

No. 104/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 163 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), No. 55/75-Central Excises, dated the 1st March, 1975, the Central Government hereby exempts goods of the description specified in the Schedule annexed hereto, and falling under Item No. 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon.

SCHEDULE

1. All kinds of food products and food preparations including—
 - (i) meat and meat products;
 - (ii) dairy products;
 - (iii) fruit and vegetable products;
 - (iv) fish and sea foods;
 - (v) bakery products; and
 - (vi) grain mill products.
2. Drawing and mathematical instruments.
3. Exercise books.
4. Writing slates and slate pencils.
5. Pencils and erasers.
6. Pens including ball point pens and refills therefor.
7. Spectacles and spectacle frames.
8. Sports goods.
9. Handicrafts.

10. Animal feed including compound livestock feed.
11. Compost manure.
12. Hand pumps.
13. Agricultural discs.
14. Agricultural implements and parts thereof but excluding—
 - (i) power operated agricultural implements and parts thereof, and
 - (ii) implements designed for use as attachments with tractors or power tillers and parts thereof.
15. Scented Chunnam (lime).
16. Katha (Catechu).
17. Vibuthi (Thiruneeru).
18. Ground spices (masalas) and mixed spices (masalas).
19. Crushed bones and bone products.
20. Insecticides, pesticides, weedicides and fungicides.
21. All drugs, medicines, pharmaceuticals and drugintermediates not elsewhere specified.
22. Contraceptives.
23. Guar splits.
24. All products of the printing industry including newspapers and printed periodicals.
25. Engraved copper rollers or cylinders for use in textile industry.
26. Sewing machines and parts thereof.
27. Cycles and parts thereof.
28. Enamelware.
29. Water filters of a capacity not exceeding 40 litres.
30. Candles.
31. Tooth-brushes.
32. Artificial limbs and rehabilitation aids for the handicapped.
33. Ocean-going vessels.
34. Lac.

Provided that food products and food preparations specified in this Schedule shall not include boiled sweets, toffees, caramels, candies, nuts (including almonds) and fruit kernels coated with sweetening agent.

सं० 105/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 164(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क विधिम. 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय यथास्थिति, (राजस्व और बीमा विभाग) या (राजस्व विभाग) की प्रत्येक अधिसूचनाएं, जिन्हें इससे उपाख्य सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट किया गया है, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्समासी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट रीति से, यथास्थिति, संशोधित या और संशोधित की जाएगी ।

सारणी

क्र० अधिसूचना सं० और तारीख	संशोधन
सं०	
(1)	(2) (3)
1. 171/67 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 21 जुलाई, 1967	उक्त अधिसूचना में "15.00" अंकों के स्थान पर "30.00" अंक रखे जाएंगे ।
2. 118/75-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, उक्त अधिसूचना के प्रथम परन्तुक के तारीख 30 अप्रैल, 1975	उक्त अधिसूचना के प्रथम परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अध्यात् :-

1	2	3	1	2	3
		“परन्तु जहाँ ऐसा उपयोग किसी विनिर्माता के ऐसे कारखाने से, जहाँ मान का विनिर्माण किया गया है, भिन्न कारखाने में किया जाता है, वहाँ इस अधिसूचना में अन्तर्निष्ठ छूट केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अध्याय 10 में उपवर्णित प्रक्रिया के अनुपालन के अधीन रहते हुए अनुश्रेय होगी।			factory where the goods have been manufactured, the exemption contained in this notification shall be allowable subject to the observance of the procedure set out in Chapter X of the Central Excise Rules, 1944.”
3	201/79 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 24 जून, 1979	उक्त अधिसूचना के प्रारम्भिक भाग में श्रीर जिसके विनिर्माण में, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की प्रथम अनुसूची की मद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाले किसी मान का (जिसे इसमें इसके पश्चात् ‘आगत’ कहा गया है) उपयोग किया गया है, शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर और जिसके विनिर्माण में, केन्द्र व उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 68 के अन्तर्गत आने वाले किसी मान का उपयोग कच्ची सामग्रियों या घटक पुर्जों के रूप में (जिसे इसमें इसके पश्चात् आगत कहा गया है) किया गया है शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।	3.	201/79—Central Excises, dated the 4th June, 1979.	In the said notification, in the opening portion, for the words, figures and brackets ‘and in the manufacture of which any goods falling under Item No. 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) (hereinafter referred as “the inputs”) have been used,’ the words, figures and brackets ‘and in the manufacture of which any goods falling under Item No. 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) have been used as raw materials or component parts (hereinafter referred as “the inputs”),’ shall be substituted.

V. LAKSHMI KUMARAN, Under Secy.

वी० लक्ष्मी कुमारन, अवर सचिव

सं० 106/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

No. 105/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 164(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) or (Department of Revenue), as the case may be, specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)
1. 171/67—Central Excises, dated the 24th July, 1967.	In the said notification, for the figures “15.00”, the figures “30.00” shall be substituted.
2. 118/75—Central Excises, dated the 30th April, 1975.	In the said notification, for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:— “Provided that where such use is in a factory of a manufacturer, different from his

सा० का० नि० 165(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 80/80-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 19 जून, 1980 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध तारीखी में, क्रम सं० 4 और 10 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

No. 106/82 - CENTRAL EXCISE

G.S.R. 165(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 80/80-Central Excises, dated the 19th June, 1980, namely:—

In the Table annexed to the said notification, S. Nos. 1 and 10 and the entries relating thereto shall be omitted.

सं० 107/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 166(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की

अधिसूचना सं० 80/80-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 19 जून, 1980 में निम्नलिखित और संशोधन करने हैं अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में उपावद्ध सारणों में :—

- (i) क्रम सं० 18 के सामने स्तम्भ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर "कृत्रिम या संश्लिष्ट रेजिन और प्लास्टिक सामग्री तथा अन्य विनिर्दिष्ट वस्तुएं।" प्रविष्टि रखी जाएगी;
 - (ii) क्रम सं० 23 के सामने स्तम्भ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर "काष्ठ और काष्ठ वस्तुएं।" प्रविष्टि रखी जाएगी;
 - (iii) क्रम सं० 24 के सामने स्तम्भ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर "सभी प्रकार का कागज या कागज बोर्ड और उसके विनिर्दिष्ट वस्तुएं।" प्रविष्टि रखी जाएगी; और
 - (iv) क्रम सं० 26 के सामने स्तम्भ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर "अस्बेस्टोस फाइबर और धूत, और उसके विनिर्दिष्ट वस्तुएं।" प्रविष्टि रखी जाएगी।
- यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1982 का प्रवृत्त होगी।

NO. 197/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 166(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 80/80-Central Excise, dated the 19th June, 1980, namely :—

In the Table annexed to the said notification,—

- (i) against S.No. 18, in column (3), for the entry, the entry "Artificial or synthetic resins and plastic materials and other specified materials." shall be substituted;
- (ii) against S.No. 23, in column (3), for the entry, the entry "Wood and articles of wood." shall be substituted;
- (iii) against S.No. 24, in column (3), for the entry, the entry "Paper and paper board, all sorts and specified articles thereof." shall be substituted; and
- (iv) against S.No. 26, in column (3), for the entry, the entry "Asbestos fibre and yarn, and manufactures therefrom." shall be substituted.

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1982.

सं० 108/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सां० का० नि० 167(अ) :— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 197/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 नवम्बर, 1982 में निम्नलिखित और संशोधन करने हैं अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में उपावद्ध सारणों के स्तम्भ (2) में, क्रम सं० 1 के सामने :—

- (i) "कृत्रिम डीजल तेल और वाष्पित तेल" प्रविष्टि के स्थान पर "परिष्कृत डीजल तेल" प्रविष्टि रखी जाएगी;
- (ii) "कृत्रिम या संश्लिष्ट रेजिन और प्लास्टिक सामग्री तथा सेलूलोस एस्टर और ईथर, और उनकी वस्तुएं" प्रविष्टि के स्थान पर "कृत्रिम या संश्लिष्ट रेजिन और प्लास्टिक सामग्री तथा अन्य सामग्री और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 15 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुएं।" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iii) "सेलुफोन अर्थात् पुनरुत्पादित सेलुलोज की कोई फिल्म या पत्तर" प्रविष्टि का लोप किया जाएगा;

(iv) "सभी प्रकार के कागज" प्रविष्टि के स्थान पर केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 17 के अन्तर्गत आने वाले कागज और कागज बोर्ड तथा उनकी वस्तुएं।" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(v) "यांत्रिक लाइटर" प्रविष्टि के स्थान पर लाइटर, जो "अन्यत्र विनिर्दिष्ट नहीं है।" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(vi) "कच्चे पेट्रोलियम या शेल के परिस्करण से व्युत्पन्न सभी उत्पाद (चाहे गैसीय, तरल अर्ध-ठोस या ठोस रूप में हों), जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं, जिनके अन्तर्गत परिस्करणणी गैस, स्नेहन तेल और ग्रीस, वैक्स और कोक हैं" प्रविष्टि के स्थान पर "कच्चे पेट्रोलियम या शेल के परिस्करण से व्युत्पन्न सभी उत्पाद (चाहे तरल, अर्ध-तरल या ठोस रूप में हों) जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं, जिनके अन्तर्गत स्नेहन तेल और ग्रीस और वैक्स हैं।" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(vii) "प्लाई वुड, ब्लाक बोर्ड शब्दों से प्रारम्भ होने वाली और "और अन्य कार्बन बन्धन तत्व।" से समाप्त होने वाली प्रविष्टि के स्थान पर "मद सं० 16 के अन्तर्गत आने वाले काष्ठ और काष्ठ वस्तुएं।" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(viii) अन्त में निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी अर्थात् :—

"पेट्रोलियम गैस।

टेलीवीजन प्रतिबिम्ब और ध्वनि अभिलेखित और प्रतिउत्पादित (जिनके अन्तर्गत वीडियो कैसेट अभिलेखित और प्रतिउत्पादित तथा वीडियो कैसेट डेक हैं) चाहे वे निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक से संयुक्त हों या नहीं :—

(i) टेलीवीजन सेट

(ii) रेडियो (जिनके अन्तर्गत ट्रांजिस्टर सेट हैं)

(iii) टेलीवीजन कैमरे (जिनके अन्तर्गत रेडियो कैमरे हैं)। टेलीवीजन कैमरे (जिनके अन्तर्गत वीडियो कैमरे हैं)। कौशल या संभावना के खेल के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन (जिनके अन्तर्गत टेलीवीजन खेल और वीडियो खेल के लिए युक्त इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं)।

इस प्रकार की वस्तुएं, जो ध्वनि या ध्वनि और प्रतिबिम्ब अभिलेखन के लिए प्रयुक्त होती हैं, चाहे वे अभिलेखित हों या नहीं, और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 59 के अन्तर्गत आती हैं।"

NO. 108/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 167(E).—In exercise of the powers conferred by rule 12 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 197/62-Central Excises, dated the 17th November, 1962, namely :—

In the Table annexed to the said notification, in column (2), against serial No. 1,—

- (i) for the entry "Refined Diesel Oil and Vaporsing Oil", the entry "Refined Diesel Oils." shall be substituted

- (ii) for the entry "Artificial or synthetic resins and plastic materials and cellulose esters and ethers, and articles thereof", the entry "Artificial or synthetic resins and plastic materials, and other materials, and articles falling under Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)." shall be substituted;
- (iii) the entry "Cellophane, that is, any film or sheet of regenerated cellulose" shall be omitted;
- (iv) for the entry "Paper all sorts", the entry "Paper and paper boards and articles thereof, falling under Item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)" shall be substituted;
- (v) for the entry "Mechanical Lighters," the entry "Lighter Not Elsewhere specified", shall be substituted;
- (vi) for the entry "All products derived from refining of crude petroleum or shale (whether gaseous, liquid, semi-solid, or solid in form), not otherwise specified, including refinery gases, lubricating oils and greases, waxes and coke," the entry "All products derived from refining of crude petroleum or shale (whether liquid, semi liquid or solid in form), not otherwise specified, including lubricating oils and greases and waxes," shall be substituted;
- (vii) for the entry beginning with the words "Plywood, Black board, . . ." and ending with the words "boards or the like," the entry "Wood and articles of wood, falling under Item No. 16B," shall be substituted.
- (viii) the following entries shall be inserted at the end, namely:-

Television image and sound recorders and reproducers (including Video cassette recorders and reproducers and Video cassette decks) whether or not in combination with one or more of the following :-

(i) television sets

(ii) radios (including transistor sets)

(iii) television cameras (including video cameras).

Television cameras (including video cameras). Electronic machines for games of skill or chance (including electronic machines used for television games and video games). Articles of a kind used for sound or sound and image recording, whether recorded or not, falling under Item No. 59 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)."

सं० 109/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा०का०नि० 168(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 56क के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 223/62-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 29 दिसम्बर, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

क्त अधिसूचना में,—

- (i) मद 6, 7 और 8 के स्थान पर निम्नलिखित मद्दे रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"6. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 15 के अन्तर्गत आने वाले मातृ जो पुनरुत्पादन से नृत्य फिल्मों

7 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 16क के अन्तर्गत आने वाले मातृ ।

8. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 17 के अन्तर्गत आने वाले कागज और कागज बोर्ड तथा उनकी वस्तुएं ।"

- (ii) मद 56 के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तर्स्थापित की जाएंगी, अर्थात् —

"57. भार के अवधारण के लिए मशीनरी और माशिन जिनके अन्तर्गत वे शिजों के गुर्जे हैं ।

58. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 59 के अन्तर्गत आने वाली इस प्रकार की वस्तुएं, जो ध्वनि या ध्वनि और प्रतिबिम्ब अभिलेखन के लिए उपयोग में लाई जाती हैं चाहे वे अभिलेखित हों या नहीं ।"

प्रार० के० चक्रवर्ती, उप सचिव

No. 109/82 CENTRAL EXCISES

G.S.R. 168(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 56A of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 223/62-C Central Excises, dated the 29th December, 1962, namely :—

In the said notification,—

- (i) for Items 6, 7 and 8, the following Items shall be substituted, namely :—

"6. Goods falling under Item No. 15A of the First Schedule to the Central Excises and salt Act, 1944 (1 of 1944), other than films or sheets of regenerated cellulose.

7. Goods falling under Item No. 16B of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

8. Paper and paper boards and articles thereof, falling under Item No. 17 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)".

- (ii) after Item 56, the following Items shall be inserted, namely :—

"57. Machinery and appliances for determination of weight including parts of weigh-bridges.

58. Articles of a kind used for sound or sound and image recording, whether recorded or not, falling under Item No. 59 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)."

R. K. CHAKRABARTI, Dy. Secy.

सं० 110/82-केन्द्रीय-उत्पाद शुल्क

सा०का०नि० 169(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन) नियम, 1982 है ।

(2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 96 म से नियम 96यययय तक का लोप
केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के—

(i) अध्याय 5 के उप-शीर्ष "ड-7 विद्युत बैटरी पुर्जे—विशेष प्रक्रिया"
और नियम 96 म से 96यययय तक का लोप किया जाएगा;

(ii) नियम 173क के उप-नियम (2) में "ड-7" अक्षर और अंक
का लोप किया जाएगा।

3. व्यावृत्ति—

नियम 2 द्वारा किए गए किसी नियम के लोप का, ऐसे लोप किए
गए नियम के अधीन, ऐसे लोप किए जाने के पूर्व, की गई किसी बात या
किसी कार्यवाई पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

बी० लक्ष्मी कुमारन, अवसर सचिव

No. 110/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 169(E).—In exercise of the powers conferred by section
37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the
Central Government hereby makes the following rules further
to amend the Central Excise Rules, 1944, namely :—

1. Short title and commencement :—

(1) These rules may be called the Central Excises (5th
Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publica-
tion in the Official Gazette.

2. Omission of rules 96Y to 96ZZZZ.—

In the Central Excise Rules, 1944—

(i) in Chapter V, the sub-heading "E-VII. Electric Battery
Parts—Special Procedure" and rules 96Y to 96 ZZZZ
shall be omitted;

(ii) rule 173A, in sub-rule (2), the letter and figures B-"VII"
shall be omitted.

3. Savings:—

The omission of any rule made by rule 2 shall not affect any
thing done or any action taken, before such omission, under the
rule so omitted.

V. LAKSHMI KUMARAN, Under Secy.

सं० 111/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 170(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क
नियम, 1944 के नियम 139 के अनुसरण में, भारत सरकार के वित्त
मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 265/67-केन्द्रीय उत्पाद-
शुल्क, तारीख 28 नवम्बर, 1967 में निम्नलिखित संशोधन करती है,
अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध मारणी में:—

(i) मद (ख) और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्न-
लिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)
"(ख) मिट्टी का तेल और विमानन टर्बाइन ईंधन	7"

(ii) मद (च) और (छ) के स्थान पर निम्न लिखित मदें रखी जाएंगी,
अर्थात्:—

1	2
"(च) एस्फाल्ट, बिटुमेन, तारकोल और पेट्रोलियम कोक (निस्तापित पेट्रोलियम कोक से विभक्त)	11

(1)	(2)
(छ) कच्चे पेट्रोलियम या गैल के (चाहे वे द्रव, अर्द्ध-द्रव या ठोस रूप में हों) के परिष्करण से प्राप्त सभी उत्पाद, जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं हैं, जिनके अन्तर्गत स्नेहन तेल और ग्रीस और मोम हैं।	11क
(ज) पेट्रोलियम गैसे	11 कक

No. 111/82—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 170(E).—In pursuance of rule 139 of the Central Excise
Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following
amendments in the notification of the Government of India in
the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 265/67-
Central Excises, dated the 28th November, 1967, namely :—

In the Table annexed to the said notification,—

(i) for Item (b) and the entries relating thereto, the follo-
wing shall be substituted, namely :—

1	2
"(b) kerosene and aviation turbine fuel	7."

(ii) for Items (f) and (g), the following items shall be substi-
tuted, namely :—

(1)	(2)
"(f) asphalt, bitumen, tar and petroleum coke (other than calcined petroleum coke)	11

(g) all products derived from refining of
crude petroleum or shale (whether
liquid, semi-solid or solid in form), not
otherwise specified, including lubricating
oils and greases, and waxes

(h) petroleum gases 11AA".

सं० 112/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 171(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम
1944 के नियम 49 के उपनियम (2) और नियम 139 के अनुसरण में,
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और वीमा विभाग) की
अधिसूचना सं० 266/67 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 नवम्बर, 1967
का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में, खंड (क) खंड (छ) के स्थान
पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(क) मोटर स्प्रिट;

(ख) मिट्टी का तेल और विमान टर्बाइन ईंधन;

(ग) परिष्कृत डीजल तेल;

(घ) डीजल तेल, जो अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं है;

(ङ) मिट्टी का तेल;

(च) एस्फाल्ट, बिटुमेन, तारकोल और पेट्रोलियम कोक (निस्तापित
पेट्रोलियम कोक से विभक्त);

(छ) कच्चे पेट्रोलियम या गैल (चाहे वे द्रव, अर्द्धद्रव या ठोस रूप में
हों), के परिष्करण से प्राप्त समस्त उत्पाद जो अन्यथा
विनिर्दिष्ट नहीं हैं और जिनके अन्तर्गत स्नेहक तेल और ग्रीस
और मोम भी हैं; और

(ज) पेट्रोलियम गैस।"

जितेन्द्र बत्रा, अवसर सचिव

No. 112/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 171(E).—In pursuance of sub-rule (2) of rule 49 and rule 139 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 266/67-Central Excises, dated the 28th November, 1967, namely :—

In the said notification, in paragraph 1, for clauses (a) to (g), the following clauses shall be substituted, namely :—

- “(a) motor spirit;
- (b) kerosene and aviation turbine fuel;
- (c) refined diesel oils;
- (d) diesel oil, not otherwise specified;
- (e) furnace oil;
- (f) asphalt, bitumen, tar and petroleum coke (other than calcined petroleum coke);
- (g) all products derived from refining of crude petroleum or shale (whether liquid, semi-solid or solid in form), not otherwise specified, including lubricating oils and greases and waxes; and
- (h) petroleum gases.”

J. K. BATRA, Under Secy.

सं० 113/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 172(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 173क के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के, यथास्थिति, राजस्व विभाग या राजस्व और बीमा विभाग अथवा राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 171/69 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तारीख 21 जून, 1969 121/70 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 28 मई, 1970, 179/71 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 23 मिनम्बर, 1971, 195/71 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 12 नवम्बर 1971, 117/72 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 25 मार्च, 1972, 161/73 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 16 अगस्त 1973, 33/76 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 28 फरवरी, 1976, 188/77 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 18 जून, 1977, 69/78 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1978, 97/79 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1979, 76/80 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 19 जून, 1980 और 55/81 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 1981 के अनुक्रम में निम्नलिखित उत्पाद-शुल्क माल को ऐसे उत्पाद-शुल्क माल के रूप में और विनिर्दिष्ट करती है जिसको उक्त नियमों के अध्याय 7क के उपबन्ध लागू होंगे, अर्थात्:—

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और तमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मव सं० 11कक, 37खख, 37गग, 47 और 59 में समाविष्ट माल।

आर० के० चक्रवर्ती, उप सचिव

No. 113/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 172-E.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 173A of the Central Excise Rules, 1944, and in continuation of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue or Department of Revenue and Insurance or Department of Revenue and Banking, as the case may be, Nos. 171/69-Central Excises, dated the 21st June 1969, 121/70-Central Excises, dated the 28th May, 1970, 179/71-Central Excises, dated the 23rd September, 1971, 195/71-Central Excises, dated the 12th November, 1971, 117/72-Central Excises, dated the 25th March, 1972, 161/73-

Central Excises, dated the 16th August, 1973, 33/76-Central Excises, dated the 28th February, 1976, 188/77-Central Excises, dated the 18th June, 1977, 69/78-Central Excises, dated the 1st March, 1978, 97/79-Central Excises, dated the 1st March, 1979, 76/80-Central Excises, dated the 19th June, 1980 and 55/81 Central Excises, dated the 1st March, 1981, the Central Government hereby further specifies the following excisable goods to which the provisions of Chapter VII-A of the said rules shall apply, namely :—

The goods comprised in Item Nos. 11AA, 37BB, 37CC, 47 and 59 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

R. K. CHAKRABARTI, Dy Secy.

सं० 114/82 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 173(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 173क के उप नियम (1) के परस्तुत द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 11/78 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 25 जनवरी, 1978 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से उपाखण्ड सारणी में क्रम सं० 36 और उसमें संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)
“37	11 कक”
जितेन्द्र बत्रा, अवर सचिव	

No. 114/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 173(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-rule (1) of rule 173A of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 11/78-Central Excises, dated the 25th January, 1978, namely :—

In the Table annexed to the said notification, after Serial No. 36 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

(1)	(2)
“37.	11AA.”

J. K. BATRA, Under Secy.

सं० 115/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा० का० नि० 174(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 174क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान, हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 2/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 जनवरी, 1981, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, तीसरे परस्तुत के पश्चात् निम्नलिखित परस्तुत अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह भी कि इन अधिसूचना में सम्मिलित छूट, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1934 (1911 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 14 ब के अन्तर्गत प्राप्त वाले रंगों की किसी प्रक्रिया में प्रयोग में लागू जाने वाले संश्लिष्ट कार्बनिक रंजकों (जिसमें पियमेंट रंजक भी हैं) और संश्लिष्ट कार्बनिक व्युत्पादों को लागू नहीं होगी।"

कार०के० चक्रवर्ती, उप सचिव

No. 115/82-CENTRAL EXCISES

G.S.R. 174(E).—In exercise of the powers conferred by rule 174A of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government, being satisfied that it is necessary and expedient in the

public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 2/81-Central Excises, dated the 17th January, 1981, namely :—

In the said notification, after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided also that the exemption contained in this notification shall not apply to synthetic organic dyestuffs (including pigment dyestuffs) and synthetic organic derivatives used in any dyeing process, falling under Item No. 14D of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944)."

R. K. CHAKRABARTI, Dy. Secy.